



रेलटेल
RAILTEL

A Government of India
Undertaking

पंचम
वार्षिक रिपोर्ट
2004-2005

FIFTH
ANNUAL REPORT
2004-2005

रेलटेल कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)

RAILTEL CORPORATION OF INDIA LIMITED
(A Government of India Undertaking)

विषय-सूची/CONTENTS

क्रम संं/ S.No.	मद/Items	पृष्ठ संं/ Page Nos.
1.	प्रबंधन टीम / Management Team	01
2.	अध्यक्ष का वक्तव्य / Chairman's Speech	02
3.	निदेशकों की रिपोर्ट / Directors' Report	3 - 6
4.	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट / Auditors' Report	7 - 9
5.	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां / CAG Comments	10 - 14
6.	तुलन पत्र / Balance Sheet	15
7.	लाभ एवं हानि लेखा / Profit & Loss Account	16
8.	अनुसूची 1 से 10	17 - 29
9.	नकदी प्रवाह विवरण / Cash Flow Statement	30 - 31
10.	तुलन पत्र सारांश और कम्पनी का सामान्य प्रोफाइल / Balance Sheet Abstract and Company's General Profile	32

प्रबंधन टीम

निदेशक बोर्ड

1. श्री रमेश चन्द्र	अध्यक्ष (16.6.2005 से)
2. श्री के.के. बाजपेयी	प्रबंध निदेशक
3. श्री महेश मंगल	निदेशक (एन.पी.एम.)
4. श्रीमती सरोज राजवाड़े	निदेशक (वित्त)
5. श्री बी.के. कृष्णा कुमार	निदेशक (पी.ओ.एम.)
6. श्री ए.के. भटनागर	निदेशक
7. श्री कपिल देव शर्मा	निदेशक

क्षेत्रीय कार्यालय:

1. क्षेत्रीय महाप्रबंधक (उत्तर)
तीसरी मंजिल, माइक्रोवेव कॉम्प्लेक्स,
रेलवे कालोनी थॉमसन रोड,
नई दिल्ली फोन.: +91-11-23220500
2. क्षेत्रीय महाप्रबंधक (दक्षिण)
दूसरी मंजिल, बी-ब्लॉक, रेल निलयम
सिकन्दराबाद-500426
फोन: +91-40-27820429
3. क्षेत्रीय महाप्रबंधक (पूर्व)
पहली मंजिल, नई कोयलाघाट बिल्डिंग,
चौदह स्ट्रैंड रोड कोलकत्ता-700001
033-22138651 to 653
Fax: 22138655
4. क्षेत्रीय महाप्रबंधक (पश्चिम)
पहली मंजिल, एनेक्सी बिल्डिंग,
रेलवे स्टेशन, चर्चगेट,
मुम्बई-400020 टेलीफैक्स: +91-22-22071330

पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालय:

10 वां तल, बैंक ऑफ बड़ौदा बिल्डिंग,
16, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001
फोन : 23311707, 23311709, फैक्स 23311711
Email: info@railtelindia.com

बैंकर्स:

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया

लेखा परीक्षक:

मैसर्स गोयल एण्ड गोयल,
चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स,
सी-2/4, कम्यूनिटी सेन्टर
फेस-2, अशोक विहार,
नई दिल्ली-110052

अध्यक्ष का वक्तव्य

माननीय अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, और रेलवे बोर्ड के अन्य सदस्य और मेरे प्रिय शेयरधारकों,

मैं आपकी कंपनी रेलटेल की इस पांचवीं वार्षिक सामान्य बैठक में आप सबका स्वागत करता हूँ।

31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा और निदेशकों की रिपोर्ट आपको पहले ही परिपत्रित की जा चुकी है।

मैं वर्ष के दौरान रेलटेल द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियों की संक्षिप्त स्थिति आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा। कंपनी ने लगभग 65.34 करोड़ ₹ की सकल आय अर्जित की जिसमें से लगभग 34.46 करोड़ ₹ की राशि वर्ष के दौरान अर्जित राजस्व के रूप में बुक की गई है और शेष रकम ग्राहकों से अग्रिम के रूप में ली गई है। आपने यह भी देखा होगा कि कंपनी ब्याज, मूल्यहास और कर से पूर्व 18.61 करोड़ ₹ तक परिचालन लाभ अर्जित करने में समर्थ रही है। परन्तु इतना प्राप्त होने के बाद, 19.50 करोड़ ₹ की शुद्ध हानि मुख्यतः भारतीय रेलवे को देय आर ओ डब्ल्यू प्रभागों और कंपनी के अतिशय पूंजीगत स्वरूप के कारण हुई।

चालू वित्त वर्ष के दौरान, ओ एफ सी के विछाने के अतिरिक्त एस.टी.एम 16 उपकरणों, एम.पी.एल.एल नेटवर्क लगाने पर वास्तविक प्रगति समान रूप से उल्लेख करने के योग्य है। वास्तव में, जबकि ये कार्य समापन की उन्नत स्थिति में है, एस.टी.एम-16 नेटवर्क का भाग ग्राहकों को सेवाएं देने के लिए पहले ही इस्तेमाल किया जा रहा है। ये दोनों परियोजनाएँ अक्टूबर, 2005 तक पूरी होने की संभावना है।

कंपनी ने पहले ही चालू वित्त वर्ष के अंत तक लगभग 32,000 मार्ग कि०मी० के लिए ओ एफ सी विछाने का लक्ष्य रखा है। ओ.एफ.सी और उस पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की लागत पूरा करने के लिए बैंकों से वित्त का भी समन्वय किया है।

चालू वित्त वर्ष के दौरान, अंतिम महीने अर्थात् अगस्त, 2005 तक कुल राजस्व आय कारोबारी कार्यों से 23.30 करोड़ ₹ तक पहुँच गई है। कंपनी ने चालू वित्त वर्ष के दौरान 96 करोड़ ₹ की कुल राजस्व आय का लक्ष्य रखा है और तदनुसार पहली बार वित्त वर्ष 2005-06 के लिए मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

यहां यह उल्लेख करना बेमौके नहीं होगा कि हाल ही में रेल मंत्रालय से निर्देश पर बी.एस.एन.एल के किराए के सर्किटों से रेलवे के ओ.एफ.सी नेटवर्क में पी.आर.एल और यू.टी.एस प्रणालियों के पूर्णतः परिवर्तन करने की प्रक्रिया पहले ही प्रारंभ कर दी गई है जिसके द्वारा रेलवे के ट्रेन नियंत्रण, परिचालन यात्री सूचना और संरक्षा प्रणालियों को शीघ्रता से आधुनिकीकरण करने में रेलटेल के प्रयासों को मान्यता मिल सकेगी।

प्रतियोगिता के बढ़ने और सरकार से निवेशों पर प्रतिफल के दबावों से अच्छी गुणवत्ता की सेवाएं प्रदान करने के लिए आपरेटों पर भार बढ़ेगा। इसलिए सम्पूर्ण दूरसंचार उद्योग को दुगुना कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, यदि उद्योग वर्ष 2004-05 में प्राप्त राजस्व वृद्धि का आधा भी राजस्व प्राप्त करना चाहता है। मुझे विश्वास है कि हम रेलटेल में वे सब करेंगे और शीघ्र ही भविष्य में और अधिक उत्कृष्ट निष्पादन एवं उच्च शेयरधारक मूल्य प्रदान करेंगे।

मैं, बोर्ड की ओर से, रेलमंत्रालय/रेलवे बोर्ड को कंपनी को उनकी निरंतर सहायता और प्रोत्साहन के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। मैं भा०रे०दि०नि० को हर्षे ऋण देने के लिए धन्यवाद देता हूँ जिससे इस कंपनी के आरंभ से अपना नेटवर्क निर्मित करने में आसानी हो सकी। मैं भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रेरित कंपनी के बैंकों को अपना आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें ऋण सुविधा प्रदान की।

इन शब्दों के साथ, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा और उसकी रिपोर्टों पर विचार किया जाए तथा उसे स्वीकार किया जाए।

अध्यक्ष

टिप्पणी: यह वार्षिक सामान्य बैठक की कार्यवाही के भाग के रूप में नहीं है।

निदेशकों की रिपोर्ट

सज्जनों,

31 मार्च 2005 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वार्षिक लेखा के साथ अपनी पांचवी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए निदेशकों को हर्ष हो रहा है।

1. परियोजनाएँ

1.1 वर्ष 2004-2005 में, रेलटेल ने अपने नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्मित करने में तथा अपने बिक्री और विपणन के कार्यकलापों में विशेष प्रगति की है।

1.2 मार्च 2005 तक बिछाए गए ऑप्टिकल फाइबर केबिल कुल 26,489 मार्ग कि.मी. था, जिसमें से 2,883 मार्ग कि.मी. वित्तीय वर्ष 2004-05 के दौरान बिछाए गए थे। ऑप्टिक फाइबर केबिल के कुल 22,423 मार्ग कि.मी. में से वर्ष के दौरान ओ.एफ.सी का 4971 मार्ग कि.मी. शुरू कर दिया गया था। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान रेलटेल ने अपने ऑ.फा.के. नेटवर्क पर 427 स्टेशनों को जोड़ा, इस प्रकार अपने ऑ.फा.के. पर सम्पूर्ण देश में फैले कुल 2085 स्टेशनों के लिए अति आवश्यक टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हुआ और इसके प्रारंभ होने से डिजिटल डिवाइड के जोड़ने में महत्वपूर्ण योगदान हुआ है।

1.3 पिछले वर्ष में, रेलटेल ने दो चरणों में एसटीएम-16 प्लेटफार्म पर फीचर पैकड बैकबोन नेटवर्क का कार्यान्वयन शुरू कर दिया। कुल 238 उपस्कर स्थल पर पहुंच गए हैं जिसमें से 95 स्टेशन 3513 मार्ग कि.मी. को शामिल करते हुए शुरू कर दिए गए हैं (केवल एकबार सामान्य सेक्शनों की गणना करते हुए चरण-I और चरण-II दोनों के लिए सम्मिलित) अगस्त 2005 तक दोनों नेटवर्क शुरू किए

जाने की संभावना है।

1.4 नई दिल्ली-इटारसी खंड पर रेलटेल के पहले एस डी एच एसटीएम-16 नेटवर्क का उद्घाटन माननीय सदस्य बिजली द्वारा 29 अप्रैल, 2005 को 1800 बजे हमारे उत्तरी क्षेत्र कार्यालय में माइक्रोवेव कॉम्प्लेक्स, उत्तर रेलवे, थॉमसन रोड, नई दिल्ली-11001 में किया गया था।

1.5 रेलटेल देश में 38 शहरों को शामिल करते हुए अत्याधुनिक एम पी एल एस-आई पी बैकबोन नेटवर्क का निर्माण कर रहा है। 38/शहरों के लिए सभी रूटर्स प्राप्त कर लिए गए हैं और उनकी स्थापना की प्रक्रिया चल रही है। नेटवर्क अगस्त 2005 तक पूर्णतया परिचालन में किए जाने की संभावना है। इससे लेअर 3 और लेअर 2 वी.पी.एन. सर्विस, ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस, मल्टी कास्ट सर्विस आदि देने में समर्थ हो सकेंगे।

— रेलटेल के बैंगलोर और पटना कॉल सेन्टरों का उद्घाटन माननीय मंत्री द्वारा 24 नवम्बर, 2004 को किया गया था और कॉल सेन्टर के कार्य करने पर जनता से अच्छा फीडबैक प्राप्त किया है तथा बी एस एन एल से राजस्व-भाग भी प्राप्त किया है।

— रेलटेल ने आई आई टी, कानपुर में 4 से 6 फरवरी 2005 तक आयोजित कम्प्यूनिक्शन और कंप्यूटिंग पर अंतर्राष्ट्रीय कंफरेंस एण्ड एक्सपोजीशन में भी भाग लिया।

— रेलटेल ने 9 से 11 फरवरी 2005 तक नई दिल्ली में "रेलवे के उपस्कर" पर आयोजित प्रदर्शनी में भाग लिया।

— रेलटेल ने 22 मार्च से 24 मार्च 2005 तक नई दिल्ली में आयोजित कन्वर्जेन्स, 2005 में अपने नेटवर्क और सेवाओं का भी प्रदर्शन किया। ऐसी सभी प्रदर्शनियों में रेलटेल के स्टाल ने बहुत लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और बहुत बड़ी संख्या में दर्शकों द्वारा स्टाल देखा गया।

2.1 विपणन

2.1 वर्ष के दौरान, रेलटेल अपने ग्राहक समूह में एक बहुत प्रभावी सूची जोड़ने में समर्थ रहा है। रेलटेल एयरटेल हच, बीपीएल मोबाइल, एयरसेल, आइडिया सेल्यूलर, टाटा टेली सर्विस, भारती इन्फोटेक, एस्सार आदि जैसे बड़े बेसिक सर्विस ऑपरेटर्स और सेल्यूलर सर्विस ऑपरेटर्स को सेवाएं प्रदान कर



29 अप्रैल, 2005 को श्री एस. सी. गुप्ता, पूर्व सदस्य बिजली, रेलवे बोर्ड और अध्यक्ष रेलटेल द्वारा एस टी एम-16 लिंक्स (दिल्ली-इटारसी सेक्शन) का उद्घाटन।

रहा है। यह वी एस एन एल, सिफ्टी ब्रिटिश गैस बी बी, इक्वैन्ट, एस टी पी आई, अन्यों में सी-डैक जैसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स और अन्य सर्विस प्रोवाइडर्स को बैंडविड्थ सेवाएं भी प्रदान कर रहा है। डार्क फाइबर, बैंडविड्थ और सह-स्थानात्मक सुविधाएं प्रदान करके रेलटेल द्वारा मल्टी सर्विस ऑपरेटर्स के लिए एक नए कारोबारी क्षेत्र को लक्षित किया जा रहा है। बड़े ग्राहकों में मैन्थन, केबिलकॉम, पेशनेट ब्रॉडबैंड, मू-

उपस्करों के) एवं एन्टीना उठाने के लिए टावर स्पेस की मार्केटिंग करने के लिए दिल्ली, कोलकाता, सिकंदराबाद, चेन्नै आदि में क्षेत्रीय और प्रादेशिक कार्यालय पहले ही स्थापित कर दिए हैं।

2.5 रेलटेल द्वारा भाग लेना

रेलटेल ने 25 से 28 अक्टूबर 2004 तक के दौरान मुम्बई में टेलीकॉम इंडिया 2004 में भाग लिया।


— रेलटेल के बैंगलोर और पटना कॉल सेन्टरों का उद्घाटन माननीय मंत्री द्वारा 24 नवम्बर, 2004 को किया गया था और कॉल सेन्टर के कार्य करने पर जनता से अच्छा फीडबैक प्राप्त किया है तथा वी एस एन एल से राजस्व-भाग भी प्राप्त किया है।

— रेलटेल ने आई आई टी, कानपुर में 4 से 6 फरवरी 2005 तक आयोजित कम्प्यूटेशन और कंप्यूटिंग पर अंतर्राष्ट्रीय कंफरेंस एण्ड एक्सपोजीशन में भी भाग लिया।

— रेलटेल ने 9 से 11 फरवरी 2005 तक नई दिल्ली में "रेलवे के उपस्कर" पर आयोजित प्रदर्शनी में भाग लिया।

— रेलटेल ने 22 मार्च से 24 मार्च 2005 तक नई दिल्ली में आयोजित कन्वर्जेन्स, 2005 में अपने नेटवर्क और सेवाओं का भी प्रदर्शन किया।

ऐसी सभी प्रदर्शिनियों में रेलटेल के स्टाल ने बहुत लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और बहुत बड़ी संख्या में दर्शकों द्वारा स्टाल देखा गया।



टेलीकॉम इंडिया 2004 में रेलटेल का भाग लेना नेटवर्क, आकाश केबिल्स इकारा टेलीकॉम, अमोघ ब्रॉडबैंड आदि।

2.2 अपने विपणन के कार्य कलापों के भाग के रूप में, रेलटेल ने 25.9.2004 को लगभग 65 करोड़ रु के मूल्य के 15 वर्ष के आई आर यू आधार लगभग पर 8600 फाइबर जोड़ा कि. मी. और 6 एस टी एम-1 बैंडविड्थ क्षमता के पट्टे पर देने के लिए टी टी एस एल, टी टी एम एल और वी एस एन एल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

2.3 इसके अलावा, वर्ष के दौरान, पट्टे पर दी गई कुल सर्किट्स 31.3.2004 को पट्टे पर दी गई 190 ई। से 31.3.2005 को 1125 ई। तक 5 गुना तक बढ़ गई हैं।

2.4 रेलटेल ने परियोजना की निगरानी करने, ओ एण्ड एम और मौजूद ऑप्टिकल फाइबर पर सरप्लस बैंडविड्थ और डिजिटल माइक्रोवेव लिंक्स तथा लीजिंग डार्क फाइबर (ओएफसी, बिना इलैक्ट्रॉनिक्स



कन्वर्जेन्स 2005 में रेलटेल का स्टाल

3. पूंजीगत ढांचा

3.1 कंपनी की प्राधिकृत पूंजी 1000 करोड़ ₹ है। 31 मार्च 2005 को कंपनी को प्रदत्त शेयर पूंजी 234 करोड़ ₹ रही जिसमें रेलवे की ओ.एफ.सी. संबंधित परिसंपत्तियों के लिए नकदी के अतिरिक्त कंसीडरेशन के लिए आबंटित 219 करोड़ ₹ की इक्विटी शामिल है।

4. वित्तीय परिणाम

4.1 रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, कुल अर्जित राजस्व प्राप्त 65.34 करोड़ थी जोकि पिछले वर्ष के दौरान अर्जित 25.95 करोड़ ₹. से 250 प्रतिशत अधिक थी। बहरहाल, 31 मार्च 2005 वर्ष को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि लेखा में दर्ज की गई वर्ष से संबंधित आय पिछले वर्ष में मार्च, 2004 को समाप्त अवधि के लिए 13.57 करोड़ ₹. की तुलना में 34.36 करोड़ ₹. थी और आगामी वर्षों में समायोजन के लिए ग्राहकों से अग्रिम में शेष रकम ली गई थी जो अंतिम रूप से दी गई लीज/कंट्रैक्ट दस्तावेजों की शर्तों पर निर्भर थी।

4.2 पिछले वर्ष में 4.24 करोड़ ₹. की तुलना में वर्ष के दौरान अर्जित परिचालन लाभ ब्याज, मूल्यहास और कर से पूर्व 18.62 करोड़ ₹. था। 9.84 करोड़ ₹. का ब्याज और 29.19 करोड़ ₹. का मूल्यहास देने के बाद कंपनी की शुद्ध हानि पिछले वित्त वर्ष के दौरान हुई 15.74 करोड़ ₹. की हानि की तुलना में '9.50 करोड़ ₹. रही' पिछले वर्ष की हानियों के साथ यह हानि भी तुलना-पत्र में अग्रनयन की गई है।

4.3 परियोजना की पूंजीगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कंपनी ने प्रति वर्ष 8.25% पर कंपनी के लिए एक सम्पूर्ण लागत के होते हुए प्रतिवर्ष 8.00% की कूपन दर पर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रेरित (लीड) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के बैंकों के एक सिंडीकेट द्वारा 400 करोड़ ₹. की ऋण सुविधा का उपयोग करने के लिए ऋण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान ऋण सुविधा II के भाग का उपयोग किया गया है। जैसा कि पहले सूचित किया गया है, रेलटेल ने भारतीय रेल वित्त निगम से 200 करोड़ ₹. का एक ऋण लिया था। इसमें से रेलटेल ने 150 करोड़ ₹. आहरित किए हैं। भा. रे. वि. नि. ने भी ऋण राशि पर ब्याज की दर में कमी की है ताकि वर्ष के दौरान बैंक ऋण की कूपन दर बराबर हो सके।

5. औद्योगिक संबंध

वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध सौहार्द पूर्ण बनाए रखे गए थे। बाहरी स्रोत से कार्मिकों और सेवा निवृत्त कर्मचारियों की नियुक्ति के अतिरिक्त, 31 मार्च 2005 को कंपनी में 158 नियमित कर्मचारी थे।

6. सतर्कता

रेलटेल ने 1 नवम्बर से 6 नवम्बर 2004 तक सतर्कता सप्ताह मनाया गया।

7. महिलाओं को रोजगार एवं राजभाषा का प्रयोग

कंपनी में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है। इसके अतिरिक्त, कंपनी राजभाषा अधिनियम के दिशानिर्देशों का पालन कर रही है। वार्षिक रिपोर्ट भी हिंदी में प्रकाशित की जाती है कंपनी सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार हिंदी के प्रयोग को उत्तरोत्तर बढ़ाएगी। अधिकारी और कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है।

8. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2क) के अधीन कर्मचारियों का विवरण.

कंपनी (कर्मचारियों का विवरण) नियम 1975 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2क) के अधीन किसी भी कर्मचारी ने निर्धारित सीमाओं से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं किया है।

9. ऊर्जा संरक्षण और प्रौद्योगिकी आमेलन संबंधी विवरण

9.1 कंपनी इस समय टेलीकॉम सेवाएं प्रदान करने में लगी हुई है। इसलिए, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (1) (ड) के उपबंध लागू नहीं है।

9.2 रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई विदेशी मुद्रा अर्जित नहीं की है। कंपनी ने वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा में 0.80 लाख ₹. (पिछले वर्ष 25.38 लाख ₹.) का व्यय किया।

10. निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

कंपनी अधिनियम, 1956 यथा संशोधित, की धारा 217 (2कक) के उपबंधों के अनुसार, आपके निदेशक निम्नलिखित रूप से पुष्टि करते हैं:-

(क) कि वार्षिक लेखा तैयार करने में लागू लेखाकरण मानकों का पालन महत्वपूर्ण विचलनों से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ किया है;

(ख) कि निदेशकों ने ऐसी लेखाकरण नीतियों का चयन किया था और उन्हें निरंतर लागू किया और ऐसे निर्णय किए जो उचित एवं विवेकपूर्ण हैं, जिनसे वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के कार्यों की स्थिति तथा उसी अवधि के लिए कंपनी के लाभ या हानि की सत्य और सही स्थिति प्रकट हो सके;

(ग) कि निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण के रिकार्डों के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती गई थी; और

(घ) कि निदेशकों ने वार्षिक लेखा चालू प्रतिष्ठान के अधार पर तैयार किए थे।

11. कॉर्पोरेट शासन

कंपनी कॉर्पोरेट शासन की संकल्पनाओं और सिद्धान्तों के प्रति प्रतिबद्ध है। एक अच्छे शासन के भाग के रूप में कंपनी ऐसी संकल्पनाओं को, जिसमें लेखा-समिति का गठन शामिल है, कार्यान्वित करने के लिए उपाय करती रहती है।

12. लेखा परीक्षक

12.1 भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक ने 31 मार्च 2005 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा की लेखा परीक्षा करने के लिए कंपनी के लेखा परीक्षक के रूप में मैसर्स गोयल एण्ड गोयल ऑफ दिल्ली को नियुक्त किया है। अपनी पिछली वार्षिक साधारण बैठक में सदस्यों द्वारा दिए गए प्राधिकार के अनुसार बोर्ड ने, पिछले वर्ष के अनुसार कर की लेखा परीक्षा के कारण व्ययों और अन्य शुल्क की प्रतिपूर्ति के अतिरिक्त, 50,000/-रु. जमा उनको सेवा की लेखा परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए पहले ही विचार किया है एवं अनुमोदन कर दिया है। इसी प्रकार से वर्ष 2005-06 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक जब कमी नियुक्त किए जाते हैं, उनको देय पारिश्रमिक के निर्धारण के लिए बोर्ड को प्राधिकृत करने के लिए शेवर धारकों का अनुमोदन लेना अपेक्षित होता है।

12.2 31 मार्च, 2005 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखा पर निर्यंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ इस रिपोर्ट की भाग बनती हैं।

13. निदेशालय

13.1 श्री के.के. बाजपेयी 16 नवम्बर 2004 से कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं।

13.2 इससे पहले, श्री आर.सी. शर्मा, अपर सदस्य (दूर संचार), रेलमंत्रालय जिनको कंपनी के प्रबंध निदेशक के कार्य निर्वहन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, 31.10.2004 से प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य करना बंद कर दिया। श्री आर.सी.शर्मा 31 मार्च, 2005 को सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

13.3 श्री एस.सी.गुप्ता सदस्य बिजली और अध्यक्ष, रेलटेल भी 30 अप्रैल, 2005 को सेवानिवृत्त होने पर कंपनी के अध्यक्ष पद से हट गए हैं।

13.4 श्री के.डी. शर्मा श्री वी जी रमेशकुमार के स्थान पर 5 मई, 2005 से कंपनी के अंशकालिक सरकारी निदेशक बोर्ड के रूप में नियुक्त किए गए हैं।

13.5 श्री रमेशचंद्र, सदस्य बिजली, रेलवे बोर्ड भी श्री एस.सी.गुप्ता के स्थान पर रेलटेल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। यह नियुक्ति 16 जून, 2005 से की गई है।

13.6 बोर्ड ने कंपनी में अपने कार्यकाल के दौरान निवर्तमान निदेशकों/कंपनी के अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर दी गई सेवाओं और मार्गदर्शनों के लिए उनकी सराहना की।

14. आभार

14.1 बोर्ड भारतीय रेलवे और अन्य विभागों के प्रति उनके सहयोग और निरंतर सहायता के लिए अपना आभार प्रकट करता है।

14.2 कंपनी आई आर एफ.सी. और भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रेरित बैंकों के सिंडीकेट को कंपनी के सहयोग और समय पर वित्तीय सहायता देने के लिए भी धन्यवाद देती है।

14.3 कंपनी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय और सांविधिक लेखा परीक्षकों की उनके मूल्यवान योगदान के लिए भी आभार प्रकट करती है।

14.4 बोर्ड कंपनी के सभी कर्मचारियों और अन्यो जिनमें रेलवे से वे अंशकालिक प्राधिकारी शामिल हैं जिन्होंने रेलटेल को कई मील के पथ पर करने के लिए समर्थ बनाया है, उनके द्वारा दी गई सेवाओं की भी सराहना करता है। बोर्ड कंपनी के मूल्यवान ग्राहकों का भी आभार प्रकट करता है जिन्होंने वास्तव में हमारे विकास को शक्ति दी है।

कृते बोर्ड और उनकी ओर से

अध्यक्ष

दिनांक : 28-7-2005

स्थान : नई दिल्ली

गोयल एण्ड गोयल चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स

संशोधित लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के सदस्यों को

हमने इस रिपोर्ट को अपनी पहली दिनांक 28 जुलाई, 2005 की रिपोर्ट के अधिक्रमण में जारी किया है। हमने रिपोर्ट के पैरा सं0 1, 2, 3, 4, 7 (I) और 7 (IV) के संबंध में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई लेखा परीक्षता की टिप्पणियों के आधार पर लेखा परीक्षता रिपोर्ट को संशोधित कर दिया है। रिपोर्ट में किए गए संशोधन से कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा।

1. हमने 31 मार्च 2005 के रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के संलग्न तुलन-पत्र उसी तारीख को समाप्त वर्ष के संबंधित लाभ एवं हानि लेखा और नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) विवरण की लेखा-परीक्षा की है जिन सभी पर हमने इस रिपोर्ट के प्रसंगाधीन हस्ताक्षर किए हैं। इन वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारी कंपनी की है। हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखा-परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के बारे में अपनी राय प्रकट करने की है।
2. हमने अपनी लेखा-परीक्षा भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा-परीक्षा के मानकों के अनुसार की है। वे मानक अपेक्षा रखते हैं कि लेखा-परीक्षा की योजना हम इस प्रकार बनाते हैं और इसे इस प्रकार निष्पादित करते हैं कि उससे इस बात का उचित आश्वासन मिल सके कि वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण गलत बयानी से मुक्त हैं। लेखा-परीक्षा में वित्तीय विवरण में रकमों और प्रकटीकरणों के समर्थन करने वाले साक्ष्यकी, जांच आधार पर परीक्षा करना शामिल है। लेखा परीक्षा में प्रयुक्त लेखाकरण सिद्धांतों का निर्धारण और प्रबंधन द्वारा बनाए गए महत्वपूर्ण अनुमानों के साथ-साथ वित्तीय विवरण की समस्त प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है। हमारा विश्वास है कि हमारी लेखा-परीक्षा हमारी राय के लिए समुचित आधार प्रस्तुत करती है।
3. हमारी राय में और हमारी पूर्ण जानकारी में तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि लेखा तथा नकदी प्रवाह विवरण महत्वपूर्ण लेखाकरण की नीतियों और उन पर टिप्पणियों के साथ पठित रेलवे से वसूलनीय आय की व्यवस्था न होने के संबंध में अनुसूची 10 के नोट सं.24 और रेलवे द्वारा कंपनी को कंपनी द्वारा प्रयुक्त बहुत सी परिसंपत्तियों के अंतरण लंबित होने से उनका पूंजीकरण न होने के संबंध में अनुसूची 10 के नोट सं.12 और 13 के अध्याधीन और जिनका प्रभाव तुलन-पत्र और/अथवा लाभ एवं हानि लेखा पर सुनिश्चित/निर्धारित नहीं किया जा सका, कंपनी अधिनियम, 1956 ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षित सूचना के रूप में निर्धारित ढंग में प्रस्तुत करते हैं और भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप क्रमशः एक सच्ची और सही चित्र भी प्रस्तुत करते हैं।
(क) 31 मार्च, 2005 को कंपनी के कार्यों की स्थिति के तुलन-पत्र के मामले में और
(ख) उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए हानि के लाभ एवं हानि लेखा के मामले में।
(ग) उसी तारीख के समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह के, नकदी प्रवाह विवरण के मामले में।
4. हमने सभी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए हमारी पूर्ण जानकारी तथा विश्वास के लिए आवश्यक थे। हमारी राय में, कंपनी ने विधि द्वारा यथापेक्षित लेखा के उचित खाते रखे हैं जहां तक कि खातों की हमारी जांच से स्पष्ट होता है। इस रिपोर्ट में तैयार किए गए तुलन-पत्र, लाभ एवं हानि लेखा और नकदी प्रवाह विवरण लेखा खातों के अनुरूप हैं।
5. हमारी राय में ये लेखा अधिनियम की धारा 211 (3ग) में दिए गए लागू लेखाकरण मानकों के अनुपालन में तैयार किए गए हैं।

6. कंपनी मामले के विभाग द्वारा जारी दिनांक 22-03-2002 के सामान्य परिपत्र सं० 8/2002 के विचार से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 (1) (छ) के उपबंध कंपनी के निदेशकों के लिए लागू नहीं है।
7. कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 227 (4क) के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 द्वारा यथा अपेक्षित हम यह भी उल्लेख करते हैं कि:-
- (i) कंपनी ने अचल संपत्तियों की स्थिति और मात्रात्मक ब्यौरा सहित दर्शाने वाले पूरे विवरण का उचित रिकार्ड रखा है। वर्ष के दौरान अचल परिसंपत्तियों का प्रबंधन द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सत्यापन कर लिया गया है और सत्यापन पर कोई महत्वपूर्ण विसंगतियाँ नहीं पाई गईं। हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान अचल संपत्तियों में से किसी का निपटान नहीं किया गया है।
- (ii) वस्तुसूची केवल अतिरिक्त पुर्जों से संबंधित है। हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, वस्तुसूची का वास्तविक सत्यापन प्रबंधन द्वारा वार्षिक आधार पर किया गया है। हमारी राय में, कंपनी के आकार और इसके कारोबार के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए ऐसे सत्यापन की बारंबारता उचित है।
/
- कंपनी ने वस्तुसूची का उचित रिकार्ड रखा है। जैसा कि हमें बताया गया है, खाता रिकार्डों की तुलना में स्टाक के वास्तविक सत्यापन पर कोई महत्वपूर्ण विसंगतियाँ नहीं पाई गई थी।
- (iii) (क) हमारे द्वारा जांच किए गए कंपनी के रिकार्डों और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कोई ऋण कंपनी द्वारा उन कंपनियों, फर्मों तथा अन्य पार्टियों को जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अधीन रखे गए रजिस्टर में सूचीबद्ध है; मंजूर नहीं किया गया है।
- (ख) हमारे द्वारा जांच किए गए कंपनी के रिकार्डों और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कोई ऋण कंपनी द्वारा उन कंपनियों, फर्मों तथा अन्य पार्टियों से जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अधीन रखे गए रजिस्टर में सूचीबद्ध है; नहीं लिया गया है।
- (iv) हमारी राय में, और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि वस्तुसूची की खरीद, अचल परिसंपत्तियाँ तथा सामान की बिक्री और सेवाओं के संबंध में, कंपनी के आकार तथा इसके कारोबार के स्वरूप के अनुरूप आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएं पर्याप्त हैं। लेखा परीक्षा के दौरान नियंत्रण प्रक्रिया में किसी बड़ी कमजोरियों की पहचान नहीं की गई है।
- (v) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार हमारी राय है कि वर्ष के दौरान ऐसा कोई लेन-देन नहीं हुआ है जिसकी कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अधीन रखे गए रजिस्टर में प्रविष्टि की जाने की आवश्यकता है।
- (vi) कंपनी ने कोई पब्लिक डिपॉजिट स्वीकार नहीं किया है।
- (vii) कंपनी के पास अपने आकार और कारोबार के स्वरूप के अनुरूप आंतरिक लेखा-परीक्षा प्रणाली है।
- (viii) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 की उप-धारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा कोई लागत रिकार्ड निर्धारित नहीं किए गए हैं।
- (ix) (क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी अविवादित सांविधिक देय राशि जिसमें भविष्य निधि, निवेशक शैक्षिक और सुरक्षा निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, संपत्ति कर, सीमाशुल्क उत्पाद शुल्क, सेवाकर, उपकर और कोई अन्य सांविधिक देय राशि शामिल है, उचित प्राधिकारियों के पास जमा करने में सामान्यतः नियमित रही है।
- (ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, आयकर बिक्रीकर, संपत्ति कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवाकर उपकर की विवादित देय राशि उचित प्राधिकारियों के पास न जमा करने के कोई मामले नहीं है।
- (x) 31 मार्च 2005 की स्थिति के अनुसार, कंपनी के नियमित होने की तारीख से 5 वर्ष पूरे नहीं किए गए हैं।
- (xi) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वित्तीय संस्थानों अथवा बैंकों को देयराशि के भुगतान में कोई चुक नहीं की है। कंपनी डिबेंचर के जरिए कोई ऋण नहीं रखती है।



- (xii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने शेयर डिबेंचर और अन्य प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर प्रतिभूति के आधार पर कोई ऋण मंजूर नहीं किया है।
- (xiii) कंपनी चिटफंड, निधि, म्यूचल लाभ निधि अथवा सोसाइटी नहीं है।
- (xiv) हमारी पूर्ण जानकारी और हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी शेयरों तथा अन्य प्रतिभूतियों का लेन देन अथवा ट्रेडिंग नहीं कर रही है।
- (xv) कंपनी ने बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों से अन्यो द्वारा लिए गए ऋण के लिए कोई गारंटियां नहीं दी है।
- (xvi) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार आवधिक ऋण उसी प्रयोजन में लगाए थे जिस प्रयोजन के लिए वे प्राप्त किए गए थे।
- (xvii) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कम अवधि के आधार पर प्राप्त की गई कोई निधि लम्बी अवधि के निवेश के लिए इस्तेमाल नहीं की गई है।
- (xviii) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी में शेयरी का कोई अधिनियम आबंटन नहीं किया है।
- (xix) कंपनी ने कोई डिबेंचर जारी नहीं किया है और इसलिए प्रतिभूतियों के सृजन का प्रश्न नहीं उठता।
- (xx) कंपनी ने पब्लिक इश्यू जारी करके कोई निधि प्राप्त नहीं की है।
- (xxi) हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास में और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार हमारे लेखा परीक्षा के दौरान कंपनी को अथवा उसके द्वारा किसी धोखाधड़ी का पता नहीं चला है।

कृते गोयल एण्ड गोयल
चार्टर्ड अकाउन्टेंट्स

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28-7-2005

शोभित गुप्ता
(पार्टनर)

31 मार्च 2005 को समाप्त वर्ष के लिए रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के लेखा पर कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के संबंध में उत्तर। भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर आधारित, सांविधिक लेखा परीक्षकों ने अपनी रिपोर्ट को संशोधित किया है जैसा कि संशोधित रिपोर्ट के प्रारंभिक पैराग्राफ में उल्लेख किया है। निम्नलिखित अतिरिक्त टिप्पणियों की गई हैं और जो 31 मार्च 2005 को समाप्त वर्ष के लिए रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के लेखा पर कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) संशोधित लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की संपूरक है।

क: लाभ एवं हानि लेखा

शुद्ध हानि: 19.50 करोड़

क मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में 32.91 लाख रु. (जिसमें पिछले वर्ष के दौरान के 13.48 लाख रु. शामिल हैं) की ब्याज की आय की पहचान की है जो आवधिक जमा में अलग से रखे गए और जमा किए गए किसी पार्टी की बैंक गारंटी की रकम है। चूंकि बैंक गारंटी की रकम (3.70 करोड़ रु.) "चालू देयताएं" शीर्ष के अंतर्गत दर्शाई गई हैं, उस पर प्रोदभूत ब्याज को मामले की लम्बित संकल्प चालू देयताओं के रूप में भी दर्शाया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप चालू देयताओं की तथा 32.91 लाख रु. तक की हानि न्यूनोक्ति की गई।

प्रबंधक का उत्तर

उत्तर कंपनी ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार कंपनी के बैंकर अर्थात् भारतीय स्टेट बैंक को निर्देश दिए गए थे कि बैंक गारंटी की 3.70 करोड़ रु. की रकम को अलग रखें और प्रारंभ में तीन महीने के लिए किसी ब्याज प्रोदभूत निक्षेप में निवेश करें। तदनुसार रकम को कंपनी के नाम में 3.70 करोड़ रु. के अलग एफ डी आर में रखा गया था। चूंकि माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में ब्याज की आय न मानने के लिए कंपनी को रोका नहीं है। ब्याज को कंपनी के वही-खातों में आय के रूप में माना गया था। बहरहाल, एफ.डी.आर को अलग रखा जा रहा है और कंपनी ने अपने कार्य के लिए कोई रकम इस्तोमाल नहीं की है।

लेखा परीक्षक की टिप्पणी नोट कर ली गई है और 2005-06 के चालू वर्ष में उचित शुद्धियां कर दी जाएंगी।

ख. तुलन-पत्र

1. पूंजीगत आरक्षित निधि (अनुसूची-1): 35.72 करोड़ रु.
अचल परिसंपत्तियों का शुद्ध ब्लाक-मार्गाधिकार (अनुसूची-3): 357.02 करोड़ रु.

लेखा संबंधी टिप्पणियाँ (अनुसूची 10) की टिप्पणियाँ सं० 17 एवं 18 को देखें। चूंकि मार्गाधिकार (right of way) के अधिग्रहण की वास्तविक लागत केवल 340.20 करोड़ रु. है, पूंजीगत आरक्षित निधि लेखा में 37.80 करोड़ रु. के अंतर को जमा करके मार्गाधिकार की लागत के रूप में 378.00 करोड़ रु. का पूंजीकरण उपयुक्त नहीं है। इसके परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों तथा आरक्षित निधि की अत्युचित एवं 35.72 करोड़ रु. (वर्ष के दौरान 2.08 करोड़ रु.) के परिशोधन के बाद तक का अधिशेष हुआ है।

ख: तुलन-पत्र

1. पूंजीगत आरक्षित निधि (अनुसूची-1): 35.72 करोड़ रु.

रेलवे के साथ करार के अनुसार मार्गाधिकार का मूल्य 378 करोड़ रु. निर्धारित किया गया था। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार कंपनी को 3% की दर से 30 वर्ष तक भुगतान करना है जो तीस वर्ष में 340.20 करोड़ की रकम बनती है। यह देखा जा सकता है कि रेल मंत्रालय के साथ करार के खण्ड 3.3 क अनुसार यह वित्तीय व्यवस्था आपसी सहमति से प्रत्येक तीन वर्ष के बाद पुनर्मूल्यांकन और समीक्षा के अधीन है। बहरहाल पिछली समीक्षा से एक वर्ष से पहले समीक्षा न होनी चाहिए।

तदनुसार करार के अनुसार 378 करोड़ रु. के मार्गाधिकार के मूल्य और इस संबंध में 340.2 करोड़ की कंपनी की देयता की पहचान करने के लिए पूंजीगत आरक्षितनिधि का सृजन किया गया था।



कंपनी द्वारा अपनाए गए और लेखा परीक्षक द्वारा सुझाए गए उपचार में, वर्ष में कंपनी के वित्तीय विवरण पर कोई प्रभाव नहीं है। फिर भी प्रबंधन चालू वर्ष में उपचार (treatment) की समीक्षा करेगा।

2. चालू देयताएं (अनुसूची-7): 489.14 करोड़ रु०

उपरोक्त रकम में 340.20 करोड़ रु० की राशि शामिल है जिसकी चुकौती 30 वार्षिक किश्तों में की जानी है और जो 30 जुलाई 2008 से शुरू होनी है। चूंकि रकम तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष के अंदर भुगतान के लिए देय नहीं है, इसे देयता में उपरोक्त शीर्षक के अधीन अलग से दर्शाया जाना चाहिए।

ग. प्रमुख लेखाकरण की नीतियाँ और लेखा संबंधी टिप्पणियाँ (अनुसूची 10)

1. केश फ्लो विवरण-टिप्पणी सं.28

मार्गाधिकार के परिशोधन की रकम होने पर नकदी प्रवाह (केश फ्लो) सहित परिचालन कार्यकलापों से 2.08 करोड़ रु० पूंजीगत आरक्षित निधि में समायोजित किया। इसके परिणामस्वरूप परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह (केश फ्लो) की अत्युक्ति और 2.08 करोड़ रु० तक निवेश के कार्य कलापों से नकदी प्रवाह (केश फ्लो) की न्यूनोक्ति हुई।

2. मार्गाधिकार (Row) पर मूल्यहास से संबंधित लेखाकरण की नीति सं.8 (ग) में परिवर्तन के सत्य और प्रभाव को ए एस-1 के अनुसार प्रकट नहीं किया गया है।

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक 21 सितम्बर, 2005

2. लेखा परीक्षा की टिप्पणी को अनुपालन के लिए नोट किया जाता है।

(ग) प्रमुख लेखाकरण की नीतियाँ और लेखा संबंधी टिप्पणियाँ (अनुसूची 10)

1. केश फ्लो विवरण-टिप्पणी सं.28

टिप्पणियाँ स्वतः स्पष्ट हैं।

2. टिप्पणियाँ स्वतः स्पष्ट हैं और भविष्य में ध्यान रखा जाएगा।

(विजया मूर्ति)
वाणिज्य लेखा परीक्षक के प्रधान निदेशक
और पदेन सदस्य लेखा परीक्षा
बोर्ड-III, नई दिल्ली

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वर्ष 31 मार्च 2005 को समाप्त वर्ष के लिए रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के लेखा की समीक्षा

टिप्पणी:- लेखा की यह समीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में उल्लिखित शर्तों और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत टिप्पणियों को ध्यान में रखे बिना तैयार की गई है।।

1. वित्तीय स्थिति:

नीचे दी गयी तालिका में पिछले तीन वर्ष के लिए कंपनी की वित्तीय स्थिति का प्रमुख शीर्षों के अंतर्गत सारांश दिया गया है:

(रुपये करोड़ में)

	2002-03	2003-04	2004-05
देयताएँ			
(क) प्रदत्त पूंजी			
(i) सरकार	15.00	234.40	234.41
(ii) अन्य	0.00	0.00	0.00
(ख) आरक्षित निधि और अधिशेष			
(i) फ्री आरक्षित निधियाँ और अधिशेष	0.00	0.00	0.00
(ii) पूंजी आरक्षित निधि	0.00	0.00	35.72
(ग) उधार			
(i) भारत सरकार से	0.00	0.00	0.00
(ii) वित्तीय संस्थानों से	0.00	0.00	0.00
(iii) विदेशी मुद्रा में ऋण	0.00	0.00	0.00
(iv) नकद उधार	0.00	0.00	0.00
(v) अन्य	150.00	150.00	170.00
(vi) प्रोद्भूत और देय ब्याज	0.00	0.00	0.00
(घ) (i) चालू देयताएँ और प्रावधान	58.49	453.64	489.15
ii) उपदान के लिए प्रावधान	0.00	0.01	0.01
(ङ) आस्थगित कर देयता	0.00	0.00	0.00
कुल	223.49	838.05	929.29
परिसंपत्तियाँ:-			
(च) सकल ब्लॉक	11.44	728.42	769.63
(छ) घटाएँ: मूल्यहास	0.57	15.88	46.23
(ज) शुद्ध ब्लॉक	10.87	712.54	723.23
(i) पूंजीगत चालू कार्य			



(पूँजीगत व्यय के लिए अग्रिमों सहित)	141.24	53.02	115.64
(अ) निवेश	0.00	0.00	0.00
(ज) चालू परिसम्पत्तियाँ ऋण और अग्रिम	68.62	54.50	53.24
(ल) बट्टेखाते न डाला गया विविध व्यय	1.40	0.89	0.40
(ठ) संचित हानि	1.36	17.10	36.61
(ड) आस्थगित कर सम्पत्ति	0.00	0.00	0.00
कुल	223.49	838.05	929.29
(क) कार्यकारी पूँजी [अ - घ (i)-ग (vi)]	10.13	-399.14	-435.91
(ण) नियोजित पूँजी (ख + ठ)	21.00	313.40	287.48
(त) शुद्ध मूल्य [क + ख (प) ट - ठ]	12.24	216.41	197.40
(थ) प्रदत्त पूँजी के प्रति रूपये का शुद्ध मूल्य	0.82	0.92	0.84

2. निधियों के स्रोत एवं उपयोग:

आंतरिक और बाह्य स्रोतों से रु. 103.84 करोड़ रुपये की वर्ष के दौरान निधियाँ वसूल की गयी। नीचे दिये गये ब्यौरों के अनुसार वसूल की गई और उपयोग की गई:

निधियों के स्रोत	करोड़ रुपये में
(क) परिचालन से निधियाँ	-19.50
(i) हानि	0.50
जोड़ें: बट्टे खाते में डाला गया विविध व्यय	30.36
जोड़ें: मूल्यह्रास में वृद्धि	
	11.36
(ख) कार्यकारी पूंजी में कमी	36.76
(ग) शेयर पूंजी में वृद्धि	0.00
(घ) प्रदत्त के लिए प्रावधान में वृद्धि	20.00
(ङ) पूंजीगत चालू कार्य में कमी	35.72
कुल	103.84
निधियों का उपयोग	
(क) अचल परिसम्पत्तियों में वृद्धि	41.21
(ख) पूंजीगत चालूकार्य में वृद्धि	46.49
(ग) पूंजीगत व्यय के लिए अग्रिम में वृद्धि	16.14
कुल	103.84

3. कार्यकारी परिणाम

31 मार्च, 2005 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के लिए कम्पनी के कार्यकारी परिणाम नीचे दिये जा रहे हैं:-

(रुपये करोड़ में)

	2002-03	2003-04	2004-05
(i) परिचालनिक आय	2.34	10.39*	32.38
(ii) अन्य अथवा विविध आय	3.65	0.95*	0.48
(iii) कर पूर्व लाभ और पिछली अवधि का समायोजन	-1.15	-15.75*	-19.50
(iv) पिछली अवधि का समायोजन	0.00	0.00*	-0.00
(v) कर पूर्वलाभ	-1.15	-15.75	-19.50
(vi) कराधान के लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.00
(vii) आस्थगित कर देयताएं	0.00	0.00	0.00
(viii) कर के बाद लाभ	-1.15	-15.75	-19.50

सधि हुई*

4. अनुपात विश्लेषण

कम्पनी के कार्यों और वित्तीय स्थिति के संबंध में 31 मार्च 2005 को समाप्त पिछले तीन वर्षों के अंत में कुछ महत्वपूर्ण अनुपात नीचे दिये जा रहे हैं:-

	2002-03	2003-04	2004-05
क. तरलता अनुपात			
चाखू अनुपात [अ/घ (i) + ग (vi)]	1.17	0.12	0.12
ख. ऋण इक्विटी अनुपात			
दीर्घावधि ऋण इक्विटी [ग (आई से वी/क्यू)]	12.25	0.69	0.86

5. विविध देनदारी

31 मार्च, 2005 को समाप्त पिछले तीन वर्षों में विविध देनदार और बिक्री निम्नलिखितानुसार थी:

(रुपये करोड़ में)

31 मार्च तक	विविध देनदार			वर्ष के दौरान परिचालनिक आय (उत्पादशुल्क सहित)	विविध देनदारों का प्रतिशत
	शोध्य माने गये	संदिग्ध माने गये	कुल		
2003	0.10	0.00	0.10	2.34	4.27
2004	0.49	0.00	0.49	9.79	5.01
2005	2.84	0.18	3.02	30.25	9.98

देनदारों पर बकाया

रुपये करोड़ में

छह महीनों से कम	0.16
छह महीनों से एक साल तक	2.86
एक साल से तीन साल तक	0.00
तीन साल से अधिक	0.00
कुल	<u>3.02</u>

(चिजया मूर्ति)

वाणिज्य लेखा परीक्षक के प्रधान निदेशक
और पदेन सदस्य लेखा परीक्षा
बोर्ड-III, नई दिल्ली

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक 21 सितंबर, 2005



31 मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार तुलना पत्र

विवरण	अनुसूची	31.3.2005 राशि (रु० में)	31.3.2004 राशि (रु० में)
धन के स्रोत			
अंशधारकों की निधि	1	2,701,298,070	1,580,546,070
भारत सरकार को ओ.एफ.सी. परिसम्पत्ति के लिए जारी की जानेवाली शेयर पूंजी ऋण निधि	2	1,700,000,000	1,500,000,000
कुल (रु०)		<u>4,401,298,070</u>	<u>3,844,088,070</u>
निधियों की प्रयोज्यता			
अचल परिसम्पत्तियाँ			
सकल ब्लॉक	3	7,696,255,987	7,284,163,939
घटाएँ: मूल्यह्रास		<u>462,345,950</u>	<u>158,758,382</u>
शुद्ध ब्लॉक		7,233,910,037	7,125,405,557
पूँजीगत चालू कार्य में	4	983,732,434	518,847,705
पूँजीगत व्यय के लिए अग्रिम	5	<u>172,685,042</u>	<u>11,321,644</u>
चालू परिसम्पत्ति, ऋण एवं अग्रिम	6	8,390,327,513	7,655,574,906
वस्तु सूची		4,111,982	4,716,479
विभिन्न देनदार		30,215,950	4,932,173
नगदी तथा बैंक शेष		371,938,291	431,976,911
अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ		10,109,044	9,260,512
ऋण एवं अग्रिम		<u>116,062,380</u>	<u>94,068,757</u>
(अ)		<u>532,437,647</u>	<u>544,954,832</u>
घटाएँ : चालू देयताएँ एवं प्रावधान	7		
चालू देयताएँ		4,891,380,941	4,536,394,023
प्रावधान		<u>191,660</u>	<u>120,889</u>
(ब)		<u>4,891,572,601</u>	<u>4,536,514,912</u>
शुद्ध चालू परिसंपत्तियाँ/(देयताएँ)	(अ)-(ब)	(4,359,134,954)	(3,991,560,080)
विविध व्यय			
(बड़े खाते में नहीं डाली गई अथवा समायोजित नहीं की गई सीमा तक)			
प्रारंभिक व्यय		4,003,430	8,006,861
आस्थगित राजस्व व्यय		-	977,318
लाभ एवं हानि खाता		<u>366,102,081</u>	<u>171,089,065</u>
कुल (रु०)		<u>4,401,298,070</u>	<u>3,844,088,070</u>
लेखाकरण नीतियाँ एवं लेखा पर टिप्पणियाँ ¹⁰			

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते गोयल एण्ड गोयल
चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट

नई दिल्ली
तारीख: 28.07.2005

शोभित गुप्ता
भागीदार

सरोज राजवाड़े
निदेशक वित्त

एस० सी० हंस
कम्पनी सचिव

के.के. बाजपेयी
प्रबंध निदेशक

31 मार्च, 2005 के समाप्त अवधि के लिए लाभ एवं हानि खाता

विवरण	अनुसूची	31.3.2005 राशि (₹0 में)	31.3.2004 राशि (₹0 में)
आय			
लीज से राजस्व डार्क फाइबर		37,447,001	12,064,677
लीज से राजस्व टावर स्पेस		29,118,792	13,296,656
लीज से राजस्व बैंड विड्थ		235,972,006	78,055,606
लीज से राजस्व-इंटरनेट		21,267,079	467,056
बैंक से प्राप्त ब्याज (सकल)			
(टी. डी. एस. प्राप्ति: 28,97,714/- ₹०			
पिछले वर्ष 33,45,368/- ₹०)		15,968,774	26,134,620
अन्य आय		4,841,209	5,715,832
		344,614,861	135,734,447
घटाएँ: निर्माण अवधि के दौरान पूंजीगत चालू कार्य			
को अंतरित प्रासंगिक आय		15,968,774	328,646,087
व्यय			
कर्मचारियों का वेतन एवं लाभ	8	59,362,059	27,770,633
प्रशासनिक एवं अन्य व्यय	9	119,729,374	58,653,276
डीओटी के लिए लाइसेंस फीस		17,436,892	11,743,982
रेलवे के साथ राजस्व शेयर		18,216,458	6,726,061
		214,744,783	104,893,952
घटाएँ: निर्माण अवधि के दौरान पूंजीगत			
चालू कार्य को अंतरित प्रासंगिक व्यय		72,290,554	142,454,229
ब्याज, मूल्यहास और कर पूर्व शुद्ध लाभ/हानि		186,191,858	42,428,773
ऋण पर ब्याज एवं अपफ्रॉंट प्रभार		171,712,930	155,117,624
घटाएँ-पूंजीगत सी.डब्ल्यू.आई.पी को अंतरित		73,305,624	98,407,306
वर्ष के लिए मूल्यहास		177,938,075	69,155,415
मार्गाधिकार का परिशोधन		125,874,000	83,916,000
		303,812,075	153,071,415
घटाएँ: पूंजीगत आरक्षित निधि से समायोजित		12,474,000	291,338,075
जोड़ें: पूर्व वर्ष के मूल्यहास समायोजन		8,540,507	-
कराधान के लिए प्रावधान		-	-
मूल्यहास व कर पश्चात् शुद्ध लाभ/हानि		(195,013,016)	(157,450,265)
(पिछले वर्ष से अग्रानीत हानि)		(171,089,065)	(13,638,800)
विविध व्यय में अंतरित शेष		(366,102,081)	(171,089,065)
लेखाकरण नीतियां एवं लेखा पर टिप्पणियां ¹⁰			

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते गोयल एण्ड गोयल

चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट

नई दिल्ली

तारीख: 28.07.2005

शोभीत गुप्ता
भागीदारसरोज राजवाड़े
निदेशक वित्तएस. सी. हंस
कम्पनी सचिवके.के. याजपेथी
प्रबंध निदेशक



31 मार्च 2005 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन-पत्र और लाभ एवं हानि लेखा का आंतरिक भाग बनने तथा उनके लिए संलग्न अनुसूचियाँ

अनुसूची 1

विवरण	अनुसूची	31.3.2005 को राशि (रु० में)	31.3.2004 को राशि (रु० में)
शेयरधारकों की निधियां			
शेयर पूंजी			
अधिकृत पूंजी			
1,00,00,00,000 प्रत्येक 10/- रु० के इक्विटी शेयर जारी, अभिदत्त एवं प्रदत्त पूंजी		10,000,000,000	10,000,000,000
1,50,000,007 प्रत्येक 10/- के रु० इक्विटी शेयर		150,000,070	150,000,070
नकद के अतिरिक्त 2,194,088.00 प्रत्येक 10/- रु० के इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 1,430,546.00) कंसीडरेशन के लिए आबटित किए गए		2,194,088,000	1,430,546,00
कुल (रु०)		<u>2,344,088,070</u>	<u>1,580,546,070</u>
आरक्षित निधि और अधिशेष			
पूंजी आरक्षित निधि			
वर्ष के दौरान अंतरित		378,000,000	-
घटाएँ: वर्ष के दौरान समायोजित		20,790,000	-
कुल (रु०)		<u>357,210,000</u>	-
कुल जोड़ (क)+(ख)		<u>2,701,298,070</u>	<u>1,580,546,070</u>

अनुसूची 2

विवरण	31.3.2005 को राशि (रु० में)	31.3.2004 को राशि (रु० में)
ऋण निधियां		
प्रतिभूत ऋण		
आवधिक ऋण		
भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रेरित बैंकों से सिंडीकेटिड आवधिक ऋण	200,000,000	-
जोड़ (क)	<u>200,000,000</u>	<u>-</u>

उपर्युक्त ऋण निम्नलिखित के जरिए प्रतिभूत किए जाते हैं:-

- कंपनी की सभी अचल और चल परिसंपत्तियों पर समरूप के आधार पर समुचित प्रभारों के रूप में, पहली श्रेणी का बंधक/मालबंधक प्रभार
- परियोजना लेखा पर पहला प्रभार। ऋण चालू रहने के दौरान, सभी प्राप्त भुगतानों को भारतीय स्टेट बैंक सी ए जी ब्रांच, नई दिल्ली में रखे जाने के लिए मूलधन प्रक्षेपित खाते में जमा कराए जाएंगे।
- नेटवर्क की बिक्री से प्राप्त संबंधी समनुदेशन चार्ज जिसमें लाइसेंस की समाप्ति/रद्दकरण की स्थिति में दूर संचार विभाग से भुगतान शामिल हैं।
- इस प्रकार के प्रक्षेपित कार्य के लिए संबंधित काउंटर पार्टियों द्वारा विधिवत अभिस्वीकृत एवं सहमत परियोजनाओं के कार्य के अंतर्गत उधारकर्ताओं के अधिकार को उधारदाताओं के पक्ष में चार्ज/समनुदेशन
- ठेकेदार की गारंटियां और परिनिर्धारित नुकसानियों का समनुदेशन/चार्ज)
- भारतीय स्टेट बैंक की संतुष्टि के सभी एक फॉर्म और ढंग में कंपनी के नाम में शेयर धारकों/बैंडरों द्वारा दिए गए किन्हीं प्रत्ययपत्रों और/अथवा निष्पादन बंधपत्रों पर प्रतिभूति/प्रभार

अप्रतिभूत ऋण

भारतीय रेल वित्त निगम लि० से आवधिक ऋण	1,500,000,000	1,500,000,000
जोड़ (ख)	<u>1,500,000,000</u>	<u>1,500,000,000</u>
कुल जोड़ (क)+(ख)	<u>1,700,000,000</u>	<u>1,500,000,000</u>

एक वर्ष के अंदर चुकता करने के लिए देय ऋण

शून्य

शून्य

अनुसूची 3

अचल परिसम्पत्तियाँ

विवरण	सकल ब्याक			मूल्यहास और ऋण मुक्ति			शेष ब्याक	
	वर्ष के दौरान	वर्ष के दौरान हुई वृद्धि	वर्ष के समाप्ति पर	वर्ष के लिए	समाप्ति पर	को कुल	को	को
1-4-2004 वर्ष के दौरान	3,780,000,000	-	3,780,000,000	83,916,000	126,874,000	208,790,000	3,570,210,000	3,696,084,000
यश का अभिजात कम्प्यूटर	5,473,054	7,410,792	-	1,081,362	1,313,944	2,395,326	10,488,520	4,391,672
फर्निचर एवं फिक्चर	2,363,642	2,969,562	-	1,034,000	337,317	1,371,317	3,961,887	1,329,642
ऑफिस उपकरण	2,192,816	2,997,082	-	344,008	306,196	650,204	4,539,694	1,848,808
पट्टादारी	-	20,479,964	-	-	443,324	443,324	20,036,640	-
उन्नतियाँ	1,846,672	528,776	-	259,741	104,903	364,644	2,010,804	1,586,931
एयरकंडीशन	148,656	1,881,009	-	29,779	26,876	56,655	1,973,010	118,877
बिजली उपकरण	2,929,804,635	394,224,927	55,802,735	60,563,561	147,741,768	208,080,822	3,060,146,005	2,869,241,074
ओ.एफ.सी. और उससे टेलीकॉम और एवं	267,253,514	74,367	267,327,911	6,833,953	12,694,552	19,528,505	247,798,406	260,419,561
रेडियो उपकरण	77,900,000	16,139,314	-	636,065	3,830,832	4,466,897	89,572,417	77,263,935
लॉग होल	179,100,000	-	179,100,000	2,655,172	8,507,250	11,162,422	167,937,578	176,444,828
उपकरण	37,080,960	21,188,960	-	1,004,721	2,431,113	3,435,834	54,834,076	36,076,229
छोटा होल	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रोफेब भवन	-	-	-	-	-	-	-	-
(ख) मूल उपकरण	1,000,000	-	1,000,000	400,000	200,000	600,000	400,000	600,000
उन परिसम्पत्तियों पर जो पूंजीगत व्यय कम्पनी को अर्पित नहीं	7,284,163,939	467,894,783	55,802,735	158,758,382	303,812,075	224,507	462,345,950	7,126,406,557
कुल क + ख	114,491,481	7,169,672,458	-	7,284,163,939	5,636,967	153,071,415	158,758,382	7,125,405,557
पिछले वर्ष	-	-	-	-	-	-	-	198,804,514

अनुसूची 4

विवरण	31.3.2005 को राशि (रु० में)	31.3.2004 को राशि (रु० में)
पूजीगत चालू कार्य		
निक्षेप कार्य के संबंध में		
रेलवे द्वारा ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाना	474,234,871	304,546,712
अन्य ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के कार्य प्रीफेब	91,191,761	102,421,038
बिल्डिंग आदि	390,110,832	17,094,417
एस-टी-एम उपस्कर की स्थापना		
जोड़:	955,537,284	424,062,167
पिछले वर्ष से अग्रानीत शुद्ध ऋण लागत पूंजीकृत (शुद्ध)	94,785,538	90,911,590
चालू वर्ष के दौरान उठाया गया	57,336,850	85,970,515
अनुषंगिक व्यय	72,290,554	33,927,764
प्रासंगिक व्यय	224,412,942	210,809,869
घटाएँ:		
वर्ष के दौरान परियोजनाओं के लिए	196,217,792	28,195,150
आर्बाटित शुद्ध आनुषंगिक व्यय		116,024,331
जोड़	983,732,434	518,847,705

अनुसूची 5

विवरण	31.3.2005 को राशि (रु० में)	31.3.2004 को राशि (रु० में)
शोध समझे अप्रतिभूत, अपुष्टिकृत		
- बैंक गारंटी द्वारा व्यवस्थित	111,644	11,6444
-अन्य	172,573,398	11,210,000
जोड़	172,685,042	11,321,644



विवरण	31.3.2005 को राशि (रु० में)	31.3.2004 को राशि (रु० में)
चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम		
वस्तुसूची (लागत पर) (प्रबंधन द्वारा ली गई, मूल्यांकित और प्रमाणित की गई) भण्डार एवं अतिरिक्त विविध देनदार (अप्रतिभूत अपुष्टिकृत) छ: महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया ऋण	4,111,982	4,716,479
समझा गया शोध	1,638,852	3,553,047
संदिग्ध समझा गया	1,854,747	-
	3,493,599	3,553,047
घटाएँ: संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	1,854,747	-
	1,638,852	3,553,047
शोध समझा गया अन्य ऋण	28,577,098	1,379,126
नगदी एवं बैंक शेष		
हस्तगत चैक	134,882,575	68,837,712
पारगमन में निधियाँ	11,552,160	-
नकद/अग्रदाय शेष	85,163	35,641
	146,519,898	68,873,353
निम्नलिखित रूप में अनुसूचित बैंकों में शेष:		
चालू खाता		
आवधिक जमा	28,442,184	15,828,487
	196,976,209	347,275,071
	371,938,291	431,976,911
शून्य रु० शामिल है (पिछले वर्ष 2 करोड़ रु०) बैंक गारंटी के बदले में भारतीय स्टेट बैंक के पास गिरवी रखा गया)		
अन्य चालू अस्तियाँ		
आवधिक जमा राशियों पर प्रोद्भूत ऋण एवं अग्रिम	10,109,044	9,260,512
शोध समझा गया अप्रतिभूत, अपुष्टियुक्त		
कर्मचारी अग्रिम	2,702,159	244,622
नकद अथवा किस्म में	88,356,131	89,023,107
अथवा प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए वस्तुनीय अग्रिम पूर्व प्रदत्त कर	25,004,090	4,801,028
	116,062,380	94,068,757
कुल	532,437,647	544,954,832

अनुसूची 7

विवरण	31.3.2005 को राशि (रु० में)	31.3.2004 को राशि (रु० में)
चालू देनदारियाँ और प्रावधान		
चालू देनदारियाँ		
विविध लेनदारी		
सूजीगत व्यय के लिए	4,202,835,866	3,963,410,453
अन्य के लिए	41,370,452	233,918,731
	<u>4,244,206,318</u>	<u>4,197,329,184</u>
जमा और ग्राहक अग्रिम	573,989,377	23,530,897
बुक ओवरड्राफ्ट कौश न किए गए चेक	1,820,828	20,161,875
अन्य देनदारियाँ	<u>71,364,418</u>	<u>295,372,067</u>
	4,891,380,940	4,536,394,023
प्रावधान		
उपदान के लिए प्रावधान	72,372	43,848
छूटटी वेतन अंशदान के लिए प्रावधान	<u>119,288</u>	<u>77,041</u>
	191,660	120,889
कुल	<u><u>4,891,572,600</u></u>	<u><u>4,536,514,912</u></u>

अनुसूची 8

विवरण	31.3.2005 राशि (रु० में)	31.3.2004 राशि (रु० में)
कर्मचारियों के पारिश्रमिक और लाभ		
वेतन एवं मजूरी	45,785,968	19,417,755
भविष्य निधि में नियोजता का अंशदान और अन्य प्रकार	74,801	68,448
लीज प्रभार	5,476,785	3,782,861
विदेश सेवा अंशदान	5,623,027	2,883,688
उपदान	28,524	10,094
छूटटी वेतन अंशदान	42,247	18,970
छुट्टी यात्रा रियायत	-	23,427
मेडिकल खर्च	2,330,707	1,565,390
कुल	<u><u>59,362,059</u></u>	<u><u>27,770,633</u></u>



विवरण	31.3.2005 को राशि (रु० में)	31.3.2004 को राशि (रु० में)
प्रशासनिक एवं अन्य व्यय		
लेखा-परीक्षक का पारिश्रमिक	81,610	48,600
संचार व्यय	4,569,648	2,911,033
वाहन व्यय	1,333,462	1,104,891
बिजली एवं ऊर्जा व्यय	2,348,361	402,647
बैंक कमीशन/प्रभार	1,255,643	2,907,464
बीमा व्यय	51,649	24,389
कार्यालय एवं विविध व्यय	6,459,975	8,668,430
व्यावसायिक प्रभार और परामर्श व्यय	4,140,306	1,095,575
किराया	6,596,089	6,575,988
दरें और कर	792,743	12,793
मरम्मत एवं अनुरक्षण अन्य	1,721,658	3,427,051
मरम्मत एवं अनुरक्षण पी एवं एम	49,678,933	9,871,083
मरम्मत एवं अनुरक्षण बिल्डिंग	216,770	2,200
निविदा, विज्ञापन एवं प्रदर्शनी व्यय	2,903,438	4,512,757
यात्रा व्यय	6,924,975	5,693,141
दान	1,004,118	-
किराया प्रभार वाहन	5,344,870	4,085,174
मुद्रण एवं लेखन सामग्री व्यय	2,324,963	1,240,830
प्रारंभिक व्यय चार्ज्ड ऑफ	4,003,431	4,003,430
पूर्व अवधि समायोजन (शुद्ध)	644,559	616,592
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	1,854,747	-
सुरक्षा के लिए बैंडविड्थ/लास्ट माइल	3,963,152	-
इंटरनेट बैंडविड्थ	5,483,001	390,000
कनेक्टिविटी प्रभार	6,031,273	1,059,208
जोड़	119,729,374	58,653,276

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियाँ

1. सामान्य

वित्तीय विवरण भारती सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखाकरण मानकों के अनुसार और कंपनी अधिनियम, 1956 की लागू आवश्यकता के अनुसार इतिवृत्तिक लागत परंपरा के अंतर्गत तैयार किए जाते हैं।

2. अचल परिसंपत्तियाँ

अचल परिसंपत्तियाँ लागत एवं संचित मूल्यहास पर निश्चित की जाती हैं। लागत में वे सभी व्यय शामिल हैं जो परिसंपत्तियों को उनके वर्तमान स्थान एवं स्थिति में लाने से संबंधित हैं।

जो व्यय निर्माण अवधि के दौरान किया गया और उससे संबंधित है, उस निर्माण लागत के भाग के रूप में पूंजी में परिणत किया जाता है और संबंधित अचल परिसंपत्तियों में आबंटित किया जाता है।

ट्रैक पहुंच सुविधाओं, अर्द्ध सुविधाओं के साथ-साथ, नीचे ऊपर अथवा आर-पार केबिल, पाइपों आदि डालने के लिए रेलवे की भूमि पर नीचे अथवा ऊपर ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क स्थापित करने, निर्माण करने, स्वामी बनने, परिचालन करने, अनुरक्षण एवं उनकी देखभाल करने के लिए कंपनी द्वारा धारित अपरिवर्तनीय और एक मात्र अधिकार और सभी बाधाओं से मुक्त, अपवादों को छोड़कर ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से संबंधित अथवा आनुषंगिक अन्य सभी अधिकारों को पूंजी में परिणत किया जाता है तथा "पथ के अधिकार" (Right of way) के रूप में माना जाता है।

उन भूमियों पर जो कंपनी के स्वामित्व में नहीं है, बिल्डिंग में संयोजन को लीजहोल्ड सुधार के रूप में पूंजी में परिणत किया जाता है।

3. पूंजीगत चालूकार्य

(क) विभिन्न परिसंपत्तियों के निर्माण के प्रासंगिक व्यय अलग-अलग परिसंपत्तियों में आनुपातिक आधार पर प्रभाजित किए जाते हैं।

(ख) कॉर्पोरेट कार्यालय के व्यय जो वर्ष के लिए निर्माण हेतु प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य है, संबंधित

क्षेत्रों के पूंजीगत चालू कार्य में प्रभाजन के लिए क्षेत्रों को आबंटित किए जाते हैं और अन्य कॉर्पोरेट आफिस जो निर्माण के लिए प्रासंगिक है प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत प्रारंभ किए गए मार्ग कि.मी. के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों को आबंटित किए जाते हैं और उसके बाद आय तथा पूंजीगत चालूकार्य की अभिवृद्धि के अनुपात में पूंजीकृत किए जाते हैं।

(ग) सप्लाइ एवं निर्माण के ठेकों के संबंध में, स्थल पर प्राप्त और स्वीकृत सप्लाइ की कीमत को पूंजीगत चालू कार्य माना जाता है।

(घ) डिपोजिट कार्यों के अधीन ठेकों का लेखा-जोखा निष्पादन एजेन्सियों से प्राप्त लेखा विवरण/निष्पादित कार्यों के तकनीकी निर्धारण के आधार पर किया जाता है।

(ङ) पूंजीगत चालू कार्य के साथ पहचानी जा सकने योग्य आय को आनुपातिक आधार पर अलग-अलग कार्यों की लागत में समायोजित किया जाता है।

4. ऋण लागत

निर्माण के दौरान अर्हक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए आरोप्य ऋण लागत को अधिग्रहण की लागत के भाग के रूप में पूंजी में परिणत किया जाता है। ऐसी उधार लागतों को वर्ष के दौरान पूंजीगत चालू कार्य के औसत पर प्रभाजित किया जाता है।

5. वस्तुसूचियाँ

भण्डार और अतिरिक्त लागत पर निश्चित की जाती हैं।

6. खंड सूचना

कंपनी का मुख्य खंड कारोबार खंड है और गौण खंड भौगोलिक खंड है। कारोबार खंड में राजस्व और व्यय प्रत्यक्ष रूप से खंड में पहचाने जा सकने योग्य हैं और संबंधित खंड को आरोपित किए जाते हैं। कंपनी कोई अंतर-खंड राजस्व नहीं रखती है। ऑप्टिक फाइबर केबिल की मरम्मत एवं अनुरक्षण पर खर्च केवल बैंडविड्थ और डार्क फाइबर पर आबंटित किया गया है। बहुत से अन्य व्यय जैसे वेतन मजूरी अन्य प्रशासनिक व्यय ब्याज खर्च, प्रारंभिक व्यय और

मूल्यहास खंड में आबंटित नहीं किए जाते हैं और परिणामस्वरूप उन्हें अन्य अनआबंटित व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

कुल परिसंपत्तियों और देयताओं के खंड, खंडों के बीच परिसंपत्तियों और देयताओं को आबंटित करने का अर्थपूर्ण आधार न होने पर, आबंटित नहीं किए गए हैं।

आय

7. आय की पहचान

एंड-टू-एंड बैंडविड्थ के पट्टे, किराए अथवा बिक्री, टावर स्पेस और स्थान के किराया प्रभार, इंटरनेट और अन्य सेवा प्रभार से आय की पहचान कनेक्शन के सक्रिय करने बाद लीज आधारित अवधि पर की जाती है।

व्यय

8. मूल्यहास

(क) मूल्यहास कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची xiv के अधीन अधिसूचित दरों पर कंपनी की अवल संपत्तियों पर स्ट्रेट-लाइन विधि के अनुसार प्रभारित किया जाता है।

(ख) 5000/रु0 से कम मूल्य की अथवा वर्ष के प्रारंभ में 5000/ रु0 अथवा कम के हासित मूल्य की खरीदी गई परिसंपत्तियों को 100% पर मूल्यहासित किया जाता है।

(ग) "पथ के अधिकार" (Right of way) मूल्यहास प्रयोग की अवधि पर स्ट्रेट-लाइन विधि पर प्रति वर्ष 3.33% की दर पर दिया जाता है जिसमें से 3% राजस्व को प्रभारित किया जाता है और 0.33% पूंजीगत आरक्षित को प्रभारित किया जाता है।

(घ) लीजहोल्ड इम्प्रूवमेंट पर मूल्यहास स्ट्रेट-लाइन विधि के रूप में प्रति वर्ष 10% की दर पर दिया जाता है।

(ङ) प्री-फेब्रिकेटेड बिल्डिंग पर मूल्यहास स्ट्रेट-लाइन विधि के रूप में प्रति वर्ष 4.75% की दर पर दिया जात है।

9. अन्य व्यय

परिचालन और निर्माण कार्यकलापों में बराबर व्यय अर्जित आय और पूंजीगत चालू कार्य में अभिवृद्धि के समानुपात में निर्माण के दौरान लाभ एवं हानि लेखा तथा आनुषंगिक व्यय में आबंटित किए जाते हैं।

10. विविध व्यय

(क) कंपनी के निगमन के संबंध में 1.4.2004 से पहले किए गए प्रारंभिक व्यय को वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ किए जाने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि पर लाभ एवं हानि लेखा में बड़े खाते डाला जाना है।

(ख) 1.4.2004 से पहले किए गए कॉर्पोरेट आफिस के फर्निशिंग व्यय तीन वर्ष की अवधि पर अर्थात् वह अवधि जिसके लिए बिल्डिंग किराए पर ली गई हैं, आस्थगित किए जाते हैं।

(11) सेवानिवृत्ति लाभ

उपदान और छूट्टी नकदीकरण के संबंध में कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभों की देयता वर्ष के अंत में बीमाकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान की जाती है।

लेखा संबंधी टिप्पणियाँ

1. आकस्मिक देयताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:-
1060 लाख रू. (पिछले वर्ष 587 लाख रू०) ऋणों के रूप में स्वीकार न किए गए कंपनी के विरुद्ध दावे।
2. पूंजीगत लेखा में निष्पादित किए जाने वाले शेष टेकों की अनुमानित और न जुटाई गई (जैसा कि प्रबंधन द्वारा प्रमाणित) राशि 14438 लाख रू० (पिछले वर्ष 13038 लाख रू०) है।
3. अग्रिमों, फुटकर देनदारों, लेनदारों और सेवाकर पुष्टि/समाधान और परिणामस्वरूप समायोजन यदि कोई हो, के अध्यक्षीन हैं।
4. प्रबंधन की राय में कारोबार के सामान्य काल में वर्तमान परिसंपत्तियाँ ऋण और वसूली पर अग्रिम उस मूल्य से कम नहीं होगा जिस मूल्य पर उन्हें तुलन-पत्र में दर्शाया जाता है।
5. कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष के अंत में तीस दिन से अधिक दिन के लिए लघु-उद्योग का कोई बकाया शेष पड़ा हुआ नहीं है।
6. 5000/- रू० तक की लागत की परिसंपत्तियों और उन परिसंपत्तियों जिनकी हासिल मूल्य 5000/- रू० तक है पर 100% की दर से मूल्यहास प्रदान करने की नीति के कारण, लाभ एवं हानि लेखा में प्रभावित मूल्यहास 3.91 लाख रू० (पिछले वर्ष 4.62 लाख रू०) से अधिक है।
7. निदेशक को भुगतान किए गए कुल पारिश्रमिक और लाभ निम्नलिखितानुसार हैं:-

	2004-05	2003-04
विवरण	(रू०)	(रू०)
पारिश्रमिक	20.84 लाख	15.49 लाख
अन्य	8.56 लाख	6.60 लाख

8. लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक में शामिल है:-

सांविधिक लेखा परीक्षा की फीस	48,570	27,000
कर लेखा-परीक्षा फीस	22,040	21,600
अन्य सेवाएं	2,500	—
पॉकेट व्यय में से	8,500	—
जोड़	81,610	48,600

पिछले वर्ष के लिए सांविधिक लेखा-परीक्षा और पॉकेट व्यय में से क्रमशः 10,000/- और 2,500 रू० शामिल है।

9. फुटकर देनदारों में उन विभिन्न सर्किटों के ग्राहकों से देय 35.68 लाख रू० (पिछले वर्ष अनिश्चित) शामिल हैं जिन्होंने बदले में अन्य सर्किटों के लिए अग्रिम जमा किए हैं। उन्हें एक दूसरे में समायोजित नहीं किया गया है क्योंकि विभिन्न सर्किटों के लिए लेखांकन स्वतंत्र रूप से किया जाता है।
10. आयकर विभाग ने वर्ष 2002-03 के कर निर्धारण के लिए 119 लाख रू० (पिछले वर्ष शून्य) की मांग की है। उसके लिए कोई देयता नहीं दी गई है क्योंकि मामला अपील के अधीन है। कंपनी को उससे छुटकारा पाने की आशा है। बहरहाल, 119 लाख रू० जमा किए गए हैं और वर्तमान परिसंपत्तियों और ऋण एवं अग्रिम के अंतर्गत शामिल कर लिए गए हैं।
11. वर्तमान देयताओं में 30 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 1134 लाख रू. के आस्थगित भुगतान के आधार पर पथ के अधिकार के लिए रेलवे को देय 34020 लाख रू. शामिल है।
12. रेलवे से रेलटेल को ओ.एफ.सी और अन्य परिसंपत्तियों का अंतरण जिसके लिए रेलटेल को रेलवे के लिए इक्विटी जारी करनी पड़ती है, एक सतत प्रक्रिया है। इक्विटी उन सभी परिसंपत्तियों के संबंध में जारी की जाती है जिनको कंपनी द्वारा अंतरण एवं पूंजीकरण कर दिया गया है। बहरहाल, कुछ मार्गों जिनके लिए अंतरण नहीं किया है उपयोग करने की स्थिति में है। ऐसे मार्गों का पूंजीकरण कंपनी द्वारा नहीं किया गया है क्योंकि वास्तविक अंतरण अभी किया जाना है। अंतरण में विलंब एक प्रक्रियात्मक स्वरूप का है। फिर भी, कंपनी राजस्व अर्जन करने के लिए ऐसे मार्गों



- का इस्तेमाल कर रही है क्योंकि कि वे उपयोग करने की स्थिति में है और ऐसे राजस्व का लेखा जोखा दिया गया है।
13. बाराबंकी-गोरखपुर में ओ.एफ.सी का पूंजीकरण 2003-04 के दौरान 558.03 लाख रु. में किया गया था क्योंकि इस कार्य को रेलवे के जरिए डिपोजिट वर्क के रूप में किए जाने के लिए विचार किया गया था। बाद में, रेलवे ने इस सेक्शन को अपनी निधियों में से पूरा करने का निर्णय किया। यह सेक्शन तब रेलवे द्वारा कंपनी का हस्तांतरित होगा। चूंकि उस रेलवे द्वारा कंपनी को अंतरित नहीं किया गया है, सेक्शन के लिए प्रविष्टि को वर्ष के दौरान उलट दिया गया। समायोजित किया गया है। सेक्शन को जब कभी रेलवे उसे कंपनी को हस्तांतरित करती है, उसका पूंजीकरण किया जाएगा।
 14. 410.85 लाख रु. के अप्रत्यक्ष कॉर्पोरेट ऑफिस व्यय अलग-अलग क्षेत्रों के लिए अंतरित कर दिए गए हैं। क्षेत्रों ने उपर्युक्त में से 233.13 लाख रु0 की राशि को बदले में पूंजीकरण किया है।
 15. कंपनी ने भारतीय सनदी (चार्टर्ड) लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आय पर करों के लेखाकरण पर लेखाकरण मानक (ले.मा.22) के अनुसार एक विवेकपूर्ण मामले के रूप में आस्थगित कर परिसंपत्तियों का सृजन नहीं किया है क्योंकि कंपनी ने मूल्यहास को अनआमेलित किया है और कर कानूनों के अधीन हानियों को अग्रणीत किया तथा कोई यथार्थ निश्चितता नहीं है कि करयोग्य आय निकट भविष्य में उपलब्ध होगी जिस पर आस्थगित कर परिसंपत्तियों वसूल की जा सकें।
 16. खंड 3 के तहत, 30 जुलाई, 2003 को रेल मंत्रालय के साथ किए गए करार के अनुसार, रेलवे कंपनी को, उक्त करार के उपबंधों के अधीन, रेलवे भूमि पर नीचे अथवा ऊपर (उचित रूप में) ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क स्थापित करने, उसका नियंत्रण करने, उसके स्वामी बनने, परिचालन करने, बनाए रखने और देख-रेख करने के लिए तीस वर्ष की अवधि के लिए एक अपरिवर्तनीय और एकमात्र अधिकार प्रदान करने के लिए मूल्य करार में 37800 लाख रु. निर्धारित किए गए थे।
 17. कंपनी ने 5 वर्ष के लिए भुगतान के आस्थगल के साथ 30 वर्ष की अवधि में देय अनुदान शुल्क के रूप में 37800 लाख रु. की देयता का सृजन करके अचल परिसंपत्तियों के अंतर्गत पथ के अधिकार के रूप में अधिकारों का पूंजीकरण किया था।
 18. 2003-04 के दौरान, कंपनी ने जैसे कि ऊपर बताया गया है, 37800 लाख रु. की देयता का सृजन किया था। 30 वर्ष की अवधि में रेलवे को देय वास्तविक देयता केवल 34020 लाख रु. (1134X30) थी। 3780 लाख रु. के अंतर को अब पूंजी आरक्षित लेखा में जमा कर दिया गया है।
 19. रेलवे के साथ करार के अधीन, कंपनी को रेलवे के लिए अपने ओ.एफ.सी. के अनुरक्षण के लिए भुगतान करना अपेक्षित है। जब तक कि रेलवे अनुरक्षण को अपने अधिकार में नहीं ले लेती है तब तक कंपनी अनुरक्षण के लिए अपना निजी प्रबंध कर रही है। इसलिए, रेलवे को अनुरक्षण प्रकारों के भुगतान लिए कोई प्रावधान लेखा में नहीं किया गया है।
 20. रेलवे के साथ किए गए करार के अधीन, कंपनी को भारत के राष्ट्रपति के नाम में कंपनी के लिए ऑप्टिक फाइबर केबिल परिसंपत्तियों के हस्तांतरण के लिए 25000 लाख रु0 के इक्विटी शेयर आबंटन करना है। वर्ष के दौरान हस्तांतरित परिसंपत्तियों के लिए मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को 7635.42 लाख रु0 के मूल्य के इक्विटी शेयर आबंटित किए गए थे। 31 मार्च, 2005 तक हस्तांतरित ओ.एफ.सी परिसंपत्तियों के लिए भारत सरकार को आबंटित कुल इक्विटी 21940.88 लाख रु0 के लिए है।
 21. (क) कंपनी ने रेलवे को उनके द्वारा अनुमान के आधार पर डिपोजिट वर्क के रूप में ओ.एफ.सी. बिलाने के लिए कई कार्य आबंटित किए हैं। कंपनी की दृष्टि में रेलवे द्वारा प्रस्तुत अनुमान उच्चतर साइड पर थे और उन्हें वर्ष के दौरान किए गए तकनीकी वित्तीय निर्धारण के बल पर संशोधित किए गए हैं। जिसके परिणाम स्वरूप, कुल परियोजना को वर्ष के दौरान 1949.85 रु0 में पूंजीकरण किया गया है।
(ख) उपरोक्त के अतिरिक्त, कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान शुरू किए गए और पूरे किए गए ओ. एफ. सी कार्यों का पूंजीकरण वर्ष के दौरान 1536 लाख रु. में किया गया।
 22. रेलवे से हस्तांतरित परिसंपत्तियों के उपयोगी आयु के ब्यौरा तथा आकलन के अभाव में, उन पर मूल्यहास कंपनी

अधिनियम 1956 की अनुसूची XIV के अनुसार प्रभावित किया गया है। कंपनी के लेखा पर प्रभाव, यदि कोई हो, सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

23. परिचालन लीज

क. पट्टा देने के प्रबंध पर सामान्य विवरण कंपनी अपने ग्राहक को निर्धारित अवधि के लिए परिचालन पट्टे पर बैडविड्थ डार्क फाइबर और टावर स्पेस प्रदान कर रही है।

ख. 31 मार्च 2005 को प्रत्येक की निम्नलिखित अवधि के लिए परिचालन पट्टे के अधीन प्राप्त करने योग्य भावी न्यूनतम पट्टा के किराए इस प्रकार हैं:-

एक वर्ष से अधिक नहीं	3006 लाख
एक वर्ष से अधिक और पांच वर्ष तक	822 लाख
पांच वर्ष से अधिक	1789 लाख
जोड़	5617 लाख

24. रेल मंत्रालय के साथ किए गए करार के पैरा 3.4 के अनुसार, रेलवे को कंपनी द्वारा प्रदान की गई लंबी कर्षण दूर संचार सेवाओं के लिए भुगतान करना पड़ता है। चूंकि रेलवे से वसूल की जाने वाली इस प्रकार की आय का निर्धारण अभी किया जाना है, उसके लिए कोई समायोजन नहीं किया गया है (रकम अनिश्चित है)

25. प्रतिशेयर अर्जन:-

	2004-05	2003-04
इक्विटी शेयर धारकों के लिए उपलब्ध	(-) 195013016	(-) 157450265
शुद्ध लाभ/हानि (-) (क) (रु.)		
प्रत्येक 10 रु0 के इक्विटी शेयर की		
भारत औसत संख्या	234408807	158054607
प्रतिशेयर मूल/तनुकृत अर्जन (क)/(ख)	(-) 0.84	(-) 0.99

26. कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची VI के अनुसरण में अतिरिक्त सूचना निम्नलिखित है:-

	2004-05	2003-04
(क) लागत बीमा एवं भाड़ा आधार पर परिकल्पित आघात का मूल्य		
i. पूंजीगत भाल	शून्य	शून्य
ii. कल-पुर्ज	शून्य	शून्य
(ख) विदेशी मुद्रा में व्यय		
i. व्यावसायिक और कंसल्टेंसी फीस	शून्य	शून्य
ii. अन्य	0.80 लाख (रु.)	25.38 लाख (रु.)
(ग) उपयोग किए गए संघटकों भण्डार और अतिरिक्त पुर्ज (आयातित एवं स्वदेशी) का मूल्य	शून्य	शून्य
(घ) विदेशी मुद्रा में अर्जन	शून्य	शून्य

27. संबंधित पार्टि प्रकटन

उन संबंधित पार्टियों की सूची जिनके साथ वर्ष के दौरान लेन-देन किया गया है और उनके साथ संबंधों का स्वरूप: संबंधित पार्टियों का नाम संबंधों का स्वरूप

1. के.के. बाजपेयी	मुख्य प्रबंधन व्यक्ति
2. बी. कृष्ण कुमार	मुख्य प्रबंधन व्यक्ति
3. महेश मंगल	मुख्य प्रबंधन व्यक्ति
4. सरोज राजबाड़े	मुख्य प्रबंधन व्यक्ति



रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.

वर्ष के दौरान संबंधित पार्टी लेन-देन का ब्यौरा:-

लेन-देन का स्वरूप	2004-05 (रु.)	2003-04 (रु.)
प्रबंधकीय पारिश्रमिक (मुख्य प्रबंधन व्यक्ति)	29.40 लाख	22.09 लाख

"इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार"

कृते गोयल एण्ड गोयल
चार्टर्ड अकाउन्टेंट

शोभीत गुप्ता
(पार्टनर)

सरोज राजवाड़े
निदेशक(वित्त)

एस.सी हंस
कंपनी सचिव

के.के.बाजपेयी
प्रबंध निदेशक

नई दिल्ली
दिनांक 28.7.2005

28. अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) विवरण

	चालू वर्ष (2004-05)	पिछला वर्ष (2003-04)
परिचालनिक कार्यकलापों से नकदी प्रवाह लाभ एवं हानि लेखा के अनुसार शुद्ध (हानि)	(195,013,016)	(157,450,265)
जोड़ें:		
प्रारंभिक व्यय चार्ज्ड ऑफ	4,003,431	4,003,430
बड़े खाते छाले गए विविध व्यय	977,316	977,320
मूल्यहास	177,713,568	69,155,415
सांघाधिकार के परिशोधन	125,874,000	83,916,000
ऋण पर ब्याज	171,712,930	155,117,624
चालू पूंजी में परिवर्तन से पहले परिचालनिक कार्यकलापों से शुद्ध नकद (क)	285,268,231	155,719,524
चालू पूंजीगत परिवर्तन		
वस्तु सूची में वृद्धि/(कमी)	(604,497)	4,716,479
अन्य चालू परिसंपत्तियों में वृद्धि/(कमी)	848,532	7,196,743
अन्य ऋणों एवं अग्रिमों में वृद्धि/(कमी)	21,993,623	83,780,348
चालू देयताओं में वृद्धि/(कमी)	115,632,276	355,536,715
फूटकर देनदारों में वृद्धि/(कमी)	25,283,777	3,960,077
चालू पूंजी में शुद्ध वृद्धि (ख)	68,110,841	255,883,068
परिचालनिक कार्यकलापों (क)+(ख) से शुद्ध नकद	353,379,072	411,602,592
निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
सकल ब्लाक में वृद्धि/(कमी)	412,092,048	7,169,672,458
पूंजीगत चालू कार्य में वृद्धि/(कमी)	464,884,729	(881,174,766)
पार्टियों को अग्रिम में वृद्धि/(कमी)	161,363,398	(1,032,269)
पूंजी आरक्षित निधि के लिए समायोजन	357,210,000	-
पूंजीगत कार्यों के लिए चालू देयताओं में वृद्धि/(कमी)	239,425,413	3,595,964,082
निवेश कार्यकलापों से शुद्ध नकद (क)	(441,704,762)	(2,691,481,341)
वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
शेयर पूंजी	-	2,194,088,000
भारतीय स्टेट बैंक से ऋण	200,000,000	-
ऋण पर ब्याज	171,712,930	155,117,624
	28,287,070	2,038,970,376
नकद और नकद के समरूप में शुद्ध वृद्धि/(कमी)	(60,036,620)	(240,908,373)
अवधि के प्रारंभ में नकद और नकद के समरूप	431,976,911	672,886,284
अवधि के अंत में नकद और नकद के समरूप	371,938,291	431,976,911



29. खंड सूचना (पिछले वर्ष के आंकड़े कोष्ठक में हैं) (लाख रु० में)

विवरण	बैंडविड्थ	डार्क फाइबर्स	टावर	इंटरनेट	अन्य	जोड़
खंडवार राजस्व	2359.72 (780.56)	374.47 (120.65)	291.19 (132.97)	212.67 (4.67)	48.41 (95.11)	3286.46 (1133.96)
खंडवार व्यय	797.45 (246.62)	83.02 (18.04)	72.80 (33.24)	54.83 (-)	- (-)	1008.10 (297.90)
खंडवार परिणाम	1562.27 (433.94)	291.45 (102.61)	218.39 (99.73)	157.84 (4.67)	48.41 (95.11)	2278.36 (836.06)
अनावटित व्यय						416.44 (411.77)
परिचालन लाभ						1861.92 (424.29)
ब्याज खर्च						984.07 (468.08)
मूल्यहास						2827.98 (1530.71)
शुद्ध हानि						1950.13 (1574.50)

30. पिछले वर्ष के आंकड़ों को इस वर्ष की प्रस्तुतीकरण के साथ उन्हें तुलनीय बनाने के लिए, जहाँ कहीं आवश्यक है, पुनः व्यवस्थित और पुनः समूहित किया गया है।

31. तुलन-पत्र सार और कंपनी की सामान्य रूप रेखा

1. पंजीकरण ब्यौरा

राज्य कोड

5 5

पंजीकरण सं०

1 0 7 9 0 5

तुलन पत्र की तारीख

3 1 0 3

2 0 0 5

2. वर्ष के दौरान जुटाई गई पूंजी (राशि हजार रु० में)

सार्वजनिक इश्यू

शून्य

राइट इश्यू

शून्य

बोनस इश्यू

शून्य

प्राइवेट प्लेसमेंट

7 6 3 5 4 2

3. निधियां जुटाने और उन्हें निवेशित करने की स्थिति (राशि हजार रु० में)

निधियों के स्रोत

कुल देयताएं

4 4 0 1 2 9 8

प्रदत्त पूंजी

2 3 4 4 0 8 8

प्रतिभूत ऋण

2 0 0 0 0 0

कुल परिसम्पत्तियां

4 4 0 1 2 9 8

शेयर आवेदन राशि

0 0 0 0 0 0

आरक्षित और अधिशेष

3 5 7 2 1 0

अप्रतिभूत ऋण

1 5 0 0 0 0 0

निधियों का अनुप्रयोग

शुद्ध स्थायी परिसम्पत्तियां

8 3 9 0 3 2 8

निवेश

शून्य

(पूंजी व्यय के लिए सी.डब्ल्यू.आई.पी. और अग्रिम शामिल हैं)

शुद्ध चालू परिसम्पत्तियां

(-) 4 3 5 9 1 3 5

संचयी घाटा

3 6 6 1 0 2

विविध व्यय

4 0 0 3

4. कम्पनी का कार्य निष्पादन (राशि हजार रु० में)

अन्य आय सहित टर्नओवर

3 2 8 6 4 6

कर पूर्व लाभ/हानि

+ - 1 9 5 0 1 3

प्रति शेयर आमदनी रु० में

(-) 0 . 8 4

कुल खर्च

5 2 3 6 5 9

करोपरत लाभ/हानि

1 9 5 0 1 3

लाभांश दर प्रतिशत

-

5. कम्पनी की मुख्य सेवाओं के तीन व्यापक नाम

वस्तु कोड सं.

उत्पाद विवरण

शून्य

टावर स्पेस से किराया

वस्तु कोड सं.

उत्पाद विवरण

लगाव नहीं

बैंडविड्थ की बिक्री

वस्तु कोड सं.

उत्पाद विवरण

लगाव नहीं

“इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार”

कृते गोयल एण्ड गोयल

चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट

नई दिल्ली

तारीख: 28.07.2005

शोभित गुप्ता

भागीदार

सरोज राजवाड़े

निदेशक वित्त

एस० सी० हंस

कम्पनी सचिव

के.के. बाजपेयी

प्रबंध निदेशक

MANAGEMENT TEAM

Board of Directors

1. Shri Ramesh Chandra	Chairman (from 16.6.2005)
2. Shri K.K. Bajpeyee	Managing Director
3. Shri Mahesh Mangal	Director (NPM)
4. Smt. Saroj Rajware	Director (Finance)
5. Shri B. Krishnakumar	Director (POM)
6. Shri A.K. Bhatnagar	Director
7. Shri Kapil Dev Sharma	Director

Regional Offices

1. Regional General Manager(North)
3rd Floor, Microwave Complex,
Railway Colony Thomson Road,
New Delhi. Tel.: +91-11-23220500
2. Regional General Manager (South)
2nd Floor,B-Block,Rail Nilayam
Secunderabad-500426
Tele: +91-40-27820429
3. Regional General Manager (Eastern)
1st floor-New Koilaghat Building
14th Strand Road Kolkata-700001
033-22138651 to 653
Fax: 22138655
4. Regional General Manager (West)
1st Floor, Annexe Building
Railway Station,Churchgate,
Mumbai-400020 Telefax: +91-22-22071330

Regd. and Corporate Office

10th floor, Bank of Baroda Building,
16, Parliament Street,
New Delhi - 110001
Ph. 23311707, 23311709 Fax 23311711
Email: info@railtelindia.com

Bankers

State Bank of India

Auditors

M/s Goyal & Goyal,
Chartered Accountants,
C-2/4 Community Centre,
Phase II, Ashok Vihar,
New Delhi-110052

CHAIRMAN'S SPEECH

Respected CRB, and other members of the Railway Board and my dear shareholders,

I welcome you all at this 5th annual general meeting of your Company RailTel.

The annual accounts for the year ended 31st March, 2005 and the report of the Directors have already been circulated to you.

I would just like to present to you a summarized position of the achievements made by RailTel during the year. The Company earned gross receipts of around Rs. 65.34 crores out of which a sum of about Rs. 34.46 crores has been booked as revenue earned during the year and the remaining amount has been taken as advance from customers. You must have also noticed that the Company has been able to earn operating profit to the extent of Rs. 18.61 crore before interest, depreciation and tax. But after providing these, the net loss amounted to Rs. 19.50 crore, mainly on account of ROW charges payable to Indian Railways and capital intensive nature of the Company.

During the current financial year, the physical progress on placing STM-16 equipments, MPLS network, besides laying of OFC is equally worth mentioning. In fact, while these works are in an advanced stages of completion, part of STM-16 network and is already being made use of for offering services to the customers. Both these projects are likely to be completed by end October, 2005.

The Company has already targeted to lay OFC for approx. 32,000 RKMs by end of current financial year. It has also tied up finances from Banks to meet the cost of OFC and the electronics equipments thereon.

During the current financial year, the total revenue income upto last month i.e. August, 2005 have touched Rs. 23.30 crore from business operations. The Company has targeted total revenue receipts of Rs. 96 crores during the current financial year and accordingly also signed an MoU with the Ministry for the first time for the financial year 2005-06.

It will not be out of place to mention here that recently on a directive from the Ministry of Railways, the process of switching over of PRS and UTS systems to Railway's OFC network from rented circuits of BSNL has already been initiated, thereby recognizing the efforts of RailTel in expeditiously modernizing Railway's train control, operation passenger information and safety systems.

With the increasing competition, and return on investments pressures from Government, the stress on operators to deliver better quality services will go up. As such, overall the telecom industry will have to work doubly hard if the industry wants even half of the growth that was achieved in the year 2004-05 fiscal. I am sure we at RailTel will do all of these and more to deliver superior performance and high shareholder value in the immediate future.

I, on behalf of the Board, express my sincere thanks to the Ministry of Railways / Railway Board for its continued support and encouragement to the Company. I wish to express my sincere thanks to IRFC for providing us the loan to facilitate building up of our network since inception of this Company. I also wish to express my gratitude to the bankers of the Company led by State Bank of India for granting to us the loan facility.

With these words, I propose that the annual accounts for the year ended 31st March, 2005 together with the reports thereon may be considered and adopted.

CHAIRMAN

Note: This does not purport to form part of the proceedings of the AGM.

DIRECTORS' REPORT

Gentlemen,

The Directors have pleasure in presenting their fifth annual report together with annual accounts of the Company for the year ended 31st March, 2005.

1. PROJECTS

1.1 In the year 2004-05, RailTel has made remarkable progress in building its network infrastructure as well as in its sales and marketing activities.

1.2 A total of OFC laid upto March, 2005 was 26,489 RKM, out of which 2,883 RKM were laid during the financial year 2004-05. Out of a total of 22, 423 RKM, 4971 RKM of OFC was commissioned during the year. RailTel connected 427 stations on its OFC network during the year under report, thus extending much needed telecom infrastructure to a total of 2085 stations spread over the entire country on its OFC network, since its inception which has contributed significantly in bridging the digital divide.

1.3 In the previous year, RailTel started implementing feature packed backbone network on STM-16 platform in two phases. A total of 238 equipments have reached the site, out of which 95 stations have been commissioned covering 3513 RKM (combined for both Phase I and II counting common sections once only). Both the networks are expected to be commissioned by August, 2005.

1.4 RailTel's 1st SDH STM-16 network on New Delhi-

Itarsi section was inaugurated by the the Hon'ble Member Electrical on 29th April, 2005 at 1800 Hrs at our Northern Region office at Microwave Complex, Northern Railways, Thomson Road, New Delhi-110001.

1.5 RailTel has been building a state of art MPLS-IP backbone network covering 38 cities in the country. All the routers for 38 cities have been received and are under the process of installation. The network is likely to be fully operational by August, 2005. It will be able to offer layer 3 and layer 2 VPN services, broadband internet access, multicast services etc.

- Railtel's - Bangalore and Patna call centres were inaugurated on 29th November, 2004 by the Hon'ble Ministers and have received good feedback from the public on functioning as also the revenue share from BSNL.

- RailTel also participated in the International Conference and Exposition on Communication and Computing held on 4th to 6th of February, 2005 at IIT, Kanpur.

- RailTel participated in the exhibition at New Delhi on 9th to 11th February, 2005 on "Railways" Equipment".

- RailTel also displayed its network and services in the Convergence 2005 held at New Delhi from 22nd to 24th March, 2005.

In all such exhibitions, the stall of RailTel attracted a lot of attention and was visited by large number of visitors.

2. MARKETING

2.1 During the year, RailTel has been able to add to its clientele a very impressive list. RailTel is providing services to major Basic Service Operators and Cellular Service Operators like AirTel, Hutch, BPL Mobile, Aircell, Idea Cellular, Tata Tele services, Bharti Infotel, Essar, etc. It is also providing bandwidth services to Internet Service Providers and Other Service Providers like VSNL, Sify, British Gas BB, Equant, STPI, C-DAC among others. A new business area of Multi Service Operators (MSO) is being



Inauguration of 1st STM-16 links (Delhi-Itarsi Section) by Shri S.C. Gupta, former Member Electrical, Railway Board and Chairman, RailTel on 29th April, 2005.

targeted by RailTel by offering Dark Fibre, bandwidth and co-locational facilities. The major customers are Manthan, Cablecomm, Pacenet Broadband, Moon Network, Akash Cables, Iqara Telecom, Amogh Broadband etc.

2.2 As a part of its marketing activities, RailTel has signed on 25.9.2004 an MoU with TTSL, TTML and



RailTel's participation in Telecom India 2004.

VSNL for leasing of about 8600 fibre pair KM and 6 STM-1 bandwidth capacity on 15 years' IRU basis, valued at approx. Rs. 65 crore.

2.3 Further, during the year, total circuits leased has increased by 5 times from 190 E1 leased as on 31.3.2004 to 1125 E1 as on 31.3.2005

2.4 RailTel has already established regional and territorial offices at Delhi, Kolkata, Secunderabad, Chennai etc. for project monitoring, O&M, and for marketing the surplus bandwidth on the existing optical fibre and digital microwave links and leasing dark fibres (OFC without electronics equipments) and tower space for hoisting antennae.



The RailTel's stall in Convergence 2005

2.5 Participation by RailTel

RailTel participated in the Telecomm India 2004 at Mumbai during 25th to 28th October, 2004

- RailTel's – Bangalore and Patna call centres were inaugurated on 29th November, 2004 by the Hon'ble Ministers and have received good feedback from the public on functioning as also the revenue share from BSNL.

- RailTel also participated in the International Conference and Exposition on Communication and Computing held on 4th to 6th of February, 2005 at IIT, Kanpur.

- RailTel participated in the exhibition at New Delhi on 9th to 11th February, 2005 on "Railways' Equipment".

- RailTel also displayed its network and services in the

Convergence 2005 held at New Delhi from 22nd to 24th March, 2005.

In all such exhibitions, the stall of RailTel attracted a lot of attention and was visited by large number of visitors.

3. CAPITAL STRUCTURE

3.1 The authorized capital of the Company is Rs. 1000 crores. As on 31st March, 2005, paid up share capital of the Company stood at Rs. 234 crores including Rs. 219 crores equity allotted for consideration other than cash against the OFC related assets of Railways.

4. FINANCIAL RESULTS

4.1 During the year under report, the total revenue receipts earned were of the order of Rs. 65.34 crores, which were 250% higher than that of Rs. 25.95 crores earned during the previous year. However, the income pertaining to the year booked in the Profit & Loss Account for the year ended 31st March, 2005 amounted to Rs. 34.36 crores as against that of Rs. 13.57 crores for period ended March, 2004 in previous year and the balance amount was taken to advances from customers for adjustment in the coming years, depending upon the terms of the lease / contract documents finalized.

4.2 The operating profit earned during the year was of the order of Rs.18.62 crores before interest, depreciation and tax as against that of Rs. 4.24 crores in the preceding year. After providing for interest of Rs. 9.84 crores and depreciation of Rs. 29.19 crores, the net loss of the Company amounted to Rs. 19.50 crores as against that of Rs.15.74 crores incurred during the preceding financial year. Such loss together with the previous years' losses have been carried over to Balance Sheet.

4.3 In order to meet capital requirements of the project, the Company has signed loan documents to avail of the credit facility of Rs. 400 crores by a syndicate of PSU banks lead by the State Bank of India at a coupon rate of 8.00% per annum with an overall cost to the Company at 8.25% per annum. Part of the loan facility has been availed of during the year under report. As earlier reported, RailTel had tied up a loan of Rs. 200 crores from Indian Railway Finance Corporation (IRFC). Out of this, RailTel has drawn Rs. 150 crores. IRFC has also reduced the rate of interest on the loan amount to match the coupon rate of bank loan during the year.

5. INDUSTRIAL RELATIONS

Cordial industrial relations were maintained during the year. There were 158 nos. of regular employees on the roll of the Company as at 31st March, 2005, besides engagement of outsourced personnel and retired employees.

6. VIGILANCE

RailTel observed Vigilance Week during 1st to 6th November, 2004.

7. EMPLOYMENT OF WOMEN, USE OF OFFICIAL LANGUAGE

7.1 There is an adequate representation of women employees in the Company. Further Company is following the guidelines of the Official Languages Act. The Annual Report is also concurrently published in Hindi. The Company would progressively increase the use in Hindi in accordance with the official language policy of the Government. The Officers and staff possess working knowledge in Hindi.

8. PARTICULARS OF EMPLOYEES U/S 217 (2A) OF THE COMPANIES ACT, 1956.

There was no employee of the Company who received remuneration in excess of the limits prescribed under Section 217(2A) of the Companies Act, 1956 read with Companies (Particulars of Employees) Rule, 1975.

9. PARTICULARS RELATING TO CONSERVATION OF ENERGY AND TECHNOLOGY ABSORPTION ETC.

9.1 The Company is presently engaged in providing of telecom services and as such, the provisions of section 217(1)(e) of the Companies Act, 1956 are not applicable.

9.2 The Company has not earned foreign exchange during the year under report. The company incurred an expenditure of Rs. 0.80 lakhs (previous year Rs. 25.38 lakhs) in foreign currency during the year.

10. DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT:

In terms of the provisions of section 217(2AA) of the Companies Act, 1956, as amended, your Directors confirm as under:

- a) that in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards have been followed alongwith proper explanation relating to material departures;
- b) that the Directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgements and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state

of affairs of the Company at the end of the financial year and of the profit or loss of the Company for that period;

c) that the Directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the Company and for prevention and detecting fraud and other irregularities; and

d) that the Directors had prepared the annual accounts on a going concern basis.

11. CORPORATE GOVERNANCE

The Company is seized of the concept of corporate governance and the principles underlying the same. As a part of good corporate governance, the Company has been taking steps to implement such concepts including constitution of Audit Committee.

12. AUDITORS

12.1 The Comptroller and Auditor General of India (CAG) have appointed M/s Goyal & Goyal of Delhi as Auditors of the Company to audit the annual accounts for the year ended 31st March, 2005. In terms of the authorization given by the members in their last annual general meeting, the Board has already considered and approve payment of audit fee of Rs. 50,000/- plus service to them, in addition to reimbursement of expenses and other fee on account of tax audit as per last year. Similarly, the approval of the shareholders is solicited for authorizing the Board for fixation of remuneration payable to the statutory auditors for the year 2005-06 as and when appointed.

12.2 The comments of the CAG on the accounts of the Company for the year ended 31st March, 2005 form part of this report.

13. DIRECTORATE

13.1 Shri K.K. Bajpeyee has been appointed as Managing Director of the Company w.e.f. 16th November, 2004.

13.2 Prior to this, Shri R.C. Sharma, Additional Member (Telecom) in the Ministry of Railways who was assigned the responsibility of discharging the functions of the Managing Director of the Company ceased to be the Managing Director w.e.f. 31.10.2004. Shri RC Sharma has since superannuated from services on 31st March, 2005.

13.3 Shri S.C. Gupta, Member Electrical and Chairman, RailTel has also ceased to be Chairman of the Company consequent upon his superannuation from services on 30th April, 2005.

13.4 Shri K.D. Sharma has been appointed as a part-time Government Director on the Board of the Company vice Shri VG Rameshkumar w.e.f. 5th May, 2005.

13.5 Shri Ramesh Chandra, Member Electrical, Railway Board has also been appointed as Chairman, RailTel vice Shri SC Gupta. Such appointment has taken effect from 16th June, 2005.

13.6 The Board placed on record its appreciation of services rendered and guidance provided by the out going Directors / Chairman of the Company from time to time during their tenure with the Company.

14. ACKNOWLEDGMENTS

14.1 The Board express its gratitude towards Indian Railways and other Departments for their cooperation and continued assistance.

14.2 The Company is also thankful to the IRFC and the syndicate of banks led by State Bank of India in extending cooperation and timely financial support to the Company.

14.3 The Company is also thankful to the office of CAG and the statutory auditors for their valued contribution.

14.4 The Board also places on record its appreciation of the services rendered by all categories of employees and others including the part-time officials from Railways which has enabled RailTel to cross many milestones. The Board also expresses its gratitude to the valued customers of the Company which has indeed enabled our growth.

For and on behalf of the Board

Chairman

Dated: 28.7.2005

Place: New Delhi



GOYAL & GOYAL

CHARTERED ACCOUNTANTS

C-2/4 Community Centre,
Phase II, Ashok Vihar,
New Delhi-110052

REVISED AUDITOR'S REPORT

TO THE MEMBERS OF RAILTEL CORPORATION OF INDIA LIMITED

We have issued this report in supersession of our earlier report dated 28th July, 2005. We have revised the Audit Report on the basis of the audit observations made by the Comptroller and Auditor General of India in regard to para No. 1,2,3,4, 7(i) and 7(iv) of the report. The revisions carried out in the report do not have any financial impact.

1. We have audited the attached Balance Sheet of **RAILTEL CORPORATION OF INDIA LIMITED** as at 31st March, 2005, the Profit & Loss Account and the Cash Flow Statement for the year ended on that date all of which we have signed under reference to this report. These financial statements are the responsibility of the company. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.
2. We conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
3. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the Balance Sheet, Profit and Loss Account & Cash Flow Statement read with the Significant Accounting Policies and Notes thereon **subject to Note No. 24 of Schedule 10 regarding non provision of Income recoverable from Railways and Note No. 12 and 13 of Schedule 10 regarding non capitalisation of certain assets used by the company pending their transfer by railways to the company and the impact of which on the Balance Sheet and/or Profit & Loss Account could not be ascertained/assessed**, give, in the prescribed manner the information required by the Companies Act, 1956 ("the Act") and also give a true and fair view in conformity with Accounting Principles generally accepted in India:
 - a) In the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the company as at 31st March, 2005;
 - b) In the case of the Profit & Loss Account, of the LOSS for the year ended on that date; and
 - c) In the case of the Cash Flow Statement, of the cash flows for the year ended on that date.
4. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit. In our opinion, proper books of accounts as required by law have been kept by the company so far as appears from our examination of those books. The Balance Sheet, Profit & Loss Account and Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.
5. In our opinion, these accounts have been prepared in compliance with the applicable accounting standards referred to in section 211 (3C) of the Act.
6. Provisions of section 274(1)(g) of the Companies Act, 1956 are not applicable to the directors of the company in view of General Circular No. 8/2002 dated 22/03/2002, issued by the Department of Company Affairs.

7. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2003, issued by the Central Government in terms of section 227 (4A) of the Companies Act, 1956 we further state that: -

- i. The company has maintained proper records showing full particulars including quantitative details and situation of Fixed Assets. The Fixed Assets have been physically verified by the management during the year and no material discrepancies were noticed on verification. According to the information and explanations given to us, none of the fixed assets have been disposed off during the year.
- ii. The inventory consists of spares parts only. According to information and explanation given to us, physical verification of inventory has been done by the management on yearly basis. In our opinion, the frequency of such verification is reasonable having regard to the size of the company and nature of its business.

The company has maintained proper records of inventory. As explained to us, there were no material discrepancies noticed on physical verification of stock as compared to book records.

- iii. (a) According to the records of the company examined by us and the information and explanations given to us, no loans have been granted by the company to companies, firms and other parties covered in the register maintained under section 301 of the Companies Act, 1956.
(b) According to the records of the company examined by us and the information and explanations given to us, no loans have been taken by the company from companies, firms and other parties covered in the register maintained under section 301 of the Companies Act, 1956.
- iv. In our opinion, and according to the information and explanations given to us it appears that there are adequate internal control procedures commensurate with the size of the company and the nature of its business, with regard to purchases of Inventory, Fixed Assets and sale of goods and services. No major weaknesses in internal control procedure have been identified during the course of audit.
- v. According to the information and explanations given to us, we are of the opinion that there has not been any transaction during the year that need to be entered in the register maintained under section 301 of the Companies Act, 1956.
- vi. The company has not accepted any Public Deposits.
- vii. The company has an Internal Audit System commensurate with its size and nature of its business.
- viii. No cost records have been prescribed by the Central Government under clause (d) of sub-section (1) of section 209 of the Companies Act, 1956.
- ix. (a) According to the information and explanations given to us, the company is generally regular in depositing undisputed statutory dues including Provident fund, Investor Educational and Protection Fund, Employees State Insurances, Income tax, Sales tax, Wealth Tax, Custom Duty, Excise Duty, Service tax, cess and any other statutory dues with the appropriate authorities.
(b) According to the information and explanations given to us, there are no cases of non deposit with the appropriate authorities of disputed dues of Income tax, Sales tax, Wealth Tax, Custom Duty, Excise Duty, Service tax, cess.
- x. The company has not completed 5 years from the date of Incorporation as at 31st March, 2005. Hence the requirement of clause (x) of paragraph 4 of the order is not applicable to the company.
- xi. According to the information and explanations given to us, the company has not made any default in repayment of dues to financial institutions or banks. The company does not have any borrowings by way of debentures.
- xii. In our opinion and according to the information and explanations given to us, the company has not



- granted any loans on the basis of security by way of pledge of shares, debentures and other securities.
- xiii. The company is not a Chit Fund, Nidhi, Mutual benefit fund or Society.
 - xiv. To the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us, the company is not dealing or trading in shares, debentures and other securities.
 - xv. The company has not given any guarantees for loans taken by others from banks or financial institutions.
 - xvi. According to the information and explanations given to us, the term loans were applied for the purpose for which they were obtained.
 - xvii. According to the information and explanations given to us, no funds raised on short-term basis have been used for Long term Investment.
 - xviii. According to the information and explanations given to us the company has not made any preferential allotment of shares.
 - xix. The company has not issued any debentures and hence the question of creating securities does not arise.
 - xx. The Company has not raised any fund through Public issue.
 - xxi. To the best of our knowledge and belief, and according to the information and explanation given to us, no fraud on or by the company has been noticed during the course of our audit.

For Goyal & Goyal
Chartered Accountants

Place : New Delhi
Date : 07.09.2005

SHOBHIT GUPTA
(PARTNER)
M.No :- 502897

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 619 (4) OF THE COMPANIES ACT 1956 ON THE ACCOUNTS OF RAIL TEL CORPORATION OF INDIA LIMITED, NEW DELHI FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2005.

Based on the observations made by the Comptroller and Auditor General of India, the statutory auditors have revised their report, as indicated in introductory paragraph of the revised report. The following further comments are made upon and supplement to the revised Auditors' report under Section 619 (4) of the Companies Act 1956 on the accounts of Railtel Corporation of India Limited for the year ended 31 March 2005:

A: Profit & Loss Account

Net Loss: 19.50 Crore

A. The Company recognised interest income of Rs. 32.91 lakh (including Rs. 13.48 lakh during previous year) accrued on Rs. 3.70 crore, being the amount of bank guarantee of a party encashed and kept separately in fixed deposit in pursuance of the orders of the High Court of Delhi. As the amount of bank guarantee (Rs. 3.70 crore) has been shown under the head "current liabilities", the interest accrued thereon should also be shown as current liabilities pending resolution of the case. This has resulted in understatement of current liabilities as well as loss by Rs. 32.91 lakh.

B. Balance Sheet

1. Capital Reserve (Schedule-1): Rs. 35.72 crore

Net block of Fixed Assets-Right of Way (Schedule-3): Rs.357.02 crore

A reference is invited to notes no. 17 and 18 of Notes on accounts (Schedule 10). As the actual cost of acquisition of right of way (ROW) is Rs. 340.20 crore only, capitalisation of Rs. 378.00 crore as cost of ROW by crediting the difference of Rs. 37.80 crore

Management Reply

Ans. As per order by the Hon'ble High court of Delhi in the case, the banker of the company i.e. State Bank of India was directed to set apart the amount of BG Rs 3.70 crore and invest in any interest accruing deposit for three months initially. Accordingly the amount was kept in separate FDR of Rs 3.70 crore in the name of the company. As in its order the Hon'ble High court has not restrained the company for not recognizing interest income, interest was recognised as income in the books of accounts of the company. However FDR is being kept separately and the company has used no amount for its own purpose.

The observation of the audit has been noted and appropriate corrections would be carried out in current year 2005-06.

B. Balance Sheet

1. Capital Reserve (Schedule-1): Rs 35.72 Crore

The value of ROW was determined at Rs. 378 crore in terms of agreement with Railways. At present arrangement the company has to pay @ 3% 30 years which amounts to Rs.340.20 crore over thirty years. It may be observed that in terms of clause 3.3 of the agreement with Ministry of Railways (MoR) this financial arrangement is subject to



to the capital reserve account is not appropriate. This has resulted in overstatement of assets as well as reserves and surplus by Rs. 35.72 crore (after amortisation of Rs. 2.08 crore during the year).

**2. Current Liabilities (Schedule-7):
Rs 489.14 crore**

Above includes a sum of Rs. 340.20 crore, repayment of which is to be made in 30 annual instalments, commencing from 30 July 2008. As the amount is not due for payment within one year from the date of balance sheet, it should be shown separately under appropriate heading on the liability side.

C. Significant Accounting Policies and Notes on Accounts (Schedule 10)

1. Cash Flow Statement-Note No. 28

'Cash flow from operating activities' included Rs. 2.08 crore, being the amount of amortisation of ROW adjusted in capital reserve. This has resulted in overstatement of 'cash flow from operating activities' and understatements of 'cash flow from investing activities' by Rs. 2.08 crore.

2. The fact and impact of change in accounting policies No.8 (c) relating to depreciation on ROW has not been disclosed as per AS-I.

Place: New Delhi
Date: 21 September, 2005

reassessment and review after every three years or earlier with mutual consent, however not earlier than one year from last review.

Accordingly Capital Reserve was created to recognise the value of ROW worth of Rs. 378 crore as per the agreement and liability of the company of Rs. 340.2 crore in this regard. In the treatment adopted by the company and as suggested by the audit, there is no impact on financial statement of the company for the year.

However the management will review the treatment in current year.

2. The observation of the audit is noted for compliance.

C. Significant Accounting Policies and Notes on Accounts (Schedule 10)

1. Cash Flow Statement-Note no 28

The observations are self-explanatory.

2. The observation are self-explanatory and would be taken care of in future.

(Vijaya Moorthy)
Principal Director of Commercial Audit
and Ex-officio Member Audit Board III
New Delhi

**REVIEW OF ACCOUNTS OF RAILTEL CORPORATION OF INDIA LIMITED, NEW DELHI FOR
THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2005 BY THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL
OF INDIA**

Note: This Review of Accounts has been prepared without taking into account the comments under section 619 (4) of the Companies Act, 1956 and qualifications contained in the Statutory Auditors Report.

1. FINANCIAL POSITION:

The table below summarises the financial position of the company under broad heading for the last three years:

	Rupees in Crore		
	2002-03	2003-04	2004-05
Liabilities:			
(a) Paid up capital			
(i) Government	15.00	234.40	234.41
(ii) Others	0.00	0.00	0.00
(b) Reserves & Surplus			
(i) Free Reserve & Surplus	0.00	0.00	0.00
(ii) Capital Reserve	0.00	0.00	35.72
(c) Borrowings			
(i) From Government of India	0.00	0.00	0.00
(ii) From Financial Institutions	0.00	0.00	0.00
(iii) Foreign Currency Loans	0.00	0.00	0.00
(iv) Cash Credit	0.00	0.00	0.00
(v) Others	150.00	150.00	170.00
(vi) Interest accrued and due	0.00	0.00	0.00
(d)			
(i) Current liabilities & Provisions	58.49	453.64	489.15
ii) Provision for Gratuity	0.00	0.01	0.01
(e) Deferred Tax Liability	0.00	0.00	0.00
Total	223.49	838.05	929.29
Assets:-			
(f) Gross Block	11.44	728.42	769.63
(g) Less: Depreciation	0.57	15.88	46.23
(h) Net Block	10.87	712.54	723.23
(i) Capital Work in Progress			



(including advances for capital expenditure)	141.24	53.02	115.64
(j) Investments	0.00	0.00	0.00
(k) Current Assets loans & advances	68.62	54.50	53.24
(l) Misc expenditure not written off	1.40	0.89	0.40
(m) Accumulated Loss	1.36	17.10	36.61
(n) Deffered tax asset	0.00	0.00	0.00
Total:	223.49	838.05	929.29
(o) Working Capital (k-d (i)-c(vi))	10.13	-399.14	-435.91
(p) Capital Employed (h+o)	21.00	313.40	287.48
(q) Net worth [a+b (i) -l -m]	12.24	216.41	197.40
(r) Net worth per Rupee of paid up Capital	0.82	0.92	0.84

2. SOURCES AND UTILISATION OF FUNDS:

Funds amounting to Rs. 103.84 Crore from internal and external sources were realised and utilised during the year as detailed below:-

Source of Funds

Rupees in Crore

(a) Funds from Operations	
(i) Loss	-19.50
Add: Misc Expenses written off	0.50
Add: Increase in Depreciation	30.36
	11.36
(b) Decrease in Working Capital	36.76
(c) Increase in Provision for gratuity	0.00
(d) Increase in Loan Fund	20.00
(e) Increase in capital reserve	35.72
Total:	103.84

Utilisation of Funds

(a) Addition to fixed assets	41.21
(b) Increase in capital work in progress	46.49
(c) Increase in advance for capital expenditure	16.14
Total:	103.84

3. WORKING RESULTS:

The working results of the Company for the last three years ending 31st March, 2005 are given below:

	Rs. in Crore		
	2002-03	2003-04	2004-05
(i) Operating income	2.34	10.39*	32.38
(ii) Other or Misc. Income	3.65	0.95*	0.48
(iii) Profit before tax and prior period adjustments	-1.15	-15.75*	-19.50
(iv) Prior period Adjustment	0.00	0.00*	-0.00
(v) Profit before tax	-1.15	-15.75	-19.50
(vi) Provision for Taxation	0.00	0.00	0.00
(vii) Deferred tax liability	0.00	0.00	0.00
(viii) Profit after tax	-1.15	-15.75	-19.50

reconciled*

4. RATIO ANALYSIS

Some important ratios on the financial health and working of the Company at the end of last three years ending 31st March, 2005 are as under:

	2002-03	2003-04	2004-05
A. Liquidity Ratio			
Current Ratio [k/d(i)+c(vi)]	1.17	0.12	0.12
B. Debt equity ratio			
Long term debt equity [c (i to v)/q]	12.25	0.69	0.86

5. SUNDRY DEBTORS

The Sundry Debtor and Sales in the last three years ended 31st March, 2005 were as follows

As on 31st March	Sundry Debtors			Operating Income during the (including Excise duty)	Percentage of Sundry Debtors to Sales
	Considered good	Considered doubtful	Total		
2003	0.10	0.00	0.10	2.34	4.27
2004	0.49	0.00	0.49	9.79	5.01
2005	2.84	0.18	3.02	30.25	9.98

Debtors outstanding

Less than 6 months	0.16
6 months to 1 years	2.86
1 years to 3 years	0.00
More than 3 years	0.00
Total	3.02

Rupees in crore

0.16
2.86
0.00
0.00
3.02

(Vijaya Moorthy)

Principal Director of Commercial Audit
and Ex-officio Member Audit Board III
New Delhi

Place: New Delhi
Date: 21 September, 2005



BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 2005

PARTICULARS	Schedule	As on 31.03.05 Amount (Rs)	As on 31.03.04 Amount (Rs)
SOURCES OF FUNDS			
Shareholder's Funds	1	2,701,298,070	1,580,546,070
Share Capital to be issued for OFC assets to Govt. of India		-	763,542,000
Loan Fund	2	1,700,000,000	1,500,000,000
TOTAL (Rs.)		<u>4,401,298,070</u>	<u>3,844,088,070</u>
APPLICATION OF FUNDS			
Fixed Assets			
Gross Block	3	7,696,255,987	7,284,163,939
Less: Depreciation		462,345,950	158,758,382
Net Block		7,233,910,037	7,125,405,557
Capital Work-in-Progress	4	983,732,434	518,847,705
Advances for Capital Expenditure	5	172,685,042	8,390,327,513
Current Assets, Loans & Advances	6		11,321,644
Inventory		4,111,982	4,716,479
Sundry Debtors		30,215,950	4,932,173
Cash & Bank Balances		371,938,291	431,976,911
Others Current Assets		10,109,044	9,260,512
Loans & Advance		116,062,380	94,068,757
	(a)	532,437,647	544,954,832
Less : Current Liabilities & Provisions	7		
Current Liabilities		4,891,380,941	4,536,394,023
Provisions		191,660	120,889
	(b)	4,891,572,601	4,536,514,912
Net Current Assets/ (Liabilities)	(a)-(b)	(4,359,134,954)	(3,991,560,080)
Miscellaneous Expenditure			
(To the extent not written off or adjusted)			
Preliminary Expenditure		4,003,430	8,006,861
Deferred Revenue expenditure		-	977,318
Profit & Loss Account		366,102,081	171,089,065
TOTAL (Rs.)		<u>4,401,298,070</u>	<u>3,844,088,070</u>
Significant Accounting policies & Notes on accounts	10		

"As per Our report of even date attached"

For Goyal & Goyal
Chartered Accountants

SHOBHIT GUPTA
(PARTNER)

SAROJ RAJWARE
Director (Finance)

S CHANS
Company Secretary

K.K.BAJPEYEE
Managing Director

New Delhi
Date: 28.07.2005

Profit & Loss Account for the year ended on 31st March, 2005

Particulars	Schedules	For the year ended on 31.03.05 Amount (Rs)		For the year ended on 31.03.04 Amount (Rs)	
INCOME					
Lease Revenue-Dark Fiber		37,447,001		12,064,677	
Lease Revenue-Tower Space		29,118,792		13,296,656	
Lease Revenue-Bandwidth		235,972,006		78,055,606	
Lease Revenue Internet		21,267,079		467,056	
(Interest from Banks (Gross) TDS Rs 28,97,714/-previous Year) 33,45,368/-		15,968,774		26,134,620	
Other Incomes		4,841,209		5,715,832	
		344,614,861		135,734,447	
Less: Interest income during construction period transferred to capital work in progress		15,968,774	328,646,087	22,339,486	113,394,961
EXPENDITURE					
Employee's Remuneration & Benefits	8	59,362,059		27,770,633	
Administrative & Other Expenses	9	119,729,374		58,653,276	
License Fee to DOT		17,436,892		11,743,982	
Revenue share with Railways		18,216,458		6,726,061	
		214,744,783		104,893,952	
Less : Incidental expenditure during construction period transferred to capital work-in-progress		72,290,554	142,454,229	33,927,764	70,966,188
Net Profit/Loss before interest, depreciation & tax			186,191,858		42,428,773
Interest on Loan & Upfront charges		171,712,930		155,117,624	
Less Borrowing Cost Transferred to CWIP		73,305,624	98,407,306	108310,001	46,807,623
Depreciation for the year		177,938,075		69,155,415	
A mortisation of Right of way		125,874,000		83,916,000	
		303,812,075		153,071,415	
Less: Adjusted from capital Reserve		12,474,000	291,338,075	-	153,071,415
Add: Depreciation adjustment for earlier year			8,540,507		
Provision for taxation			-		
Net Loss after depreciation & tax			(195,013,016)		(157,450,265)
Losses brought forward from previous year			(171,089,065)		(13,638,800)
Balance transferred to Miscellaneous Expenditure			(366,102,081)		(171,089,065)
Significant Accounting policies & Notes on accounts			10		

"As per Our report of even date attached"

For Goyal & Goyal
Chartered AccountantsSHOBHIT GUPTA
(PARTNER)SAROJ RAJWARE
Director (Finance)S CHANS
Company SecretaryK.K.BAJPEYEE
Managing DirectorNew Delhi
Date: 28.07.2005



Schedules annexed to and forming an integral part of the Balance Sheet and Profit & Loss Account for the year ended 31st March, 2005

Schedule 1

PARTICULARS	As on 31.03.05 Amount (Rs)	As on 31.03.04 Amount (Rs)
SHAREHOLDER'S FUNDS		
Share Capital		
Authorised Capital		
1,00,00,00,000 Equity shares of Rs. 10/- each	10,000,000,000	10,000,000,000
Issued, Subscribed & Paid up Capital		
1,50,000,007 Equity shares of Rs. 10/- each	150,000,070	150,000,070
219408800 (Previous Year 143054600) Equity shares of Rs 10/- each allotted for consideration other than cash	2,194,088,000	1,430,546,000
TOTAL (a)	2,344,088,070	1,580,546,070
RESERVE & SURPLUS		
Capital Reserve		
Transferred during the year	378,000,000	-
Less: Adjusted during the year	20,790,000	-
TOTAL (Rs.)	357,210,000	-
GRAND TOTAL (a)+(b)	2,701,298,070	1,580,546,070

Schedule 2

PARTICULARS	As on 31.03.05 Amount (Rs.)	As on 31.03.04 Amount (Rs.)
LOAN FUNDS		
Secured Loans		
Term Loan		
Syndicated Term Loan from Banks led by State Bank of India	200,000,000	-
TOTAL (a)	<u><u>200,000,000</u></u>	<u><u>-</u></u>

Above loans are secured by way of:-

- A. First ranking mortgage/Hypothecation charge, as appropriate charges over all the company's immovable and movable assets on pari passu basis.
- B. First Charge on Project account. During the currency of loan, all payments received would get deposited in the principal projected account to be maintained at State Bank of India, CAG Branch, New Delhi.
- C. Assignment/Charge of proceeds from sale of network including payments from DOT in the events of Termination/ Cancellation of Licence.
- D. Charge/assignment in favours of lenders of the borrowers right under projects assignments duly acknowledged and consented to by the relevent counter parties to such projected assignment.
- E. Assignment/Charge of contractor guarantees and liquidated damages.
- F. Security/charge over any letters of credits and/or performance bonds provided by the shareholders/vendors in favours of the company all in a form and manner satiffactory to SBI.

Unsecured Loans

Term Loan from Indian Railway Finance Corporation Ltd.	1,500,000,000	1,500,000,000
TOTAL (B)	<u><u>1,500,000,000</u></u>	<u><u>1,500,000,000</u></u>
GRAND TOTAL (a)+(b)	<u><u>1,700,000,000</u></u>	<u><u>1,500,000,000</u></u>

Loans due for repayment within one year

NIL

NIL

Schedule 3

RAILTEL CORPORATION OF INDIA LIMITED
FIXED ASSETS

PARTICULARS	GROSS BLOCK			DEPRECIATION & AMORTISATION			NET BLOCK		
	AS ON 1-4-2004 DURING THE YEAR	ADDITIONS DURING THE YEAR	ADJUST- MENTS DURING THE YEAR	TOTAL AS ON 31/03/05	AS ON 1-4-2004	FORTH YEAR	TOTAL AS ON 31/03/05	AS ON 31/03/05	AS ON 31/03/04
A. FIXED ASSETS									
RIGHT OF WAY	3,780,000,000	-	-	3,780,000,000	88,916,000	125,874,000	209,790,000	3,570,210,000	3,696,084,000
COMPUTER FURNITURE & FIXTURE	5,473,054	7,410,792	-	12,883,846	1,081,382	1,313,944	2,395,326	10,488,520	4,391,672
OFFICE EQUIPMENTS LEASEHOLD IMPROVEMENTS	2,363,642	2,969,562	-	5,333,204	1,034,000	337,317	1,371,317	3,961,887	1,329,642
AIR CONDITIONERS	1,846,672	20,479,964	-	20,479,964	-	443,324	443,324	20,036,640	-
ELECTRICAL EQUIPMENTS	148,656	528,776	-	2,375,448	259,741	104,903	364,644	2,010,804	1,586,931
OFC & RELATED ASSETS	2,929,804,635	394,224,927	55,802,735	3,268,226,827	60,563,561	147,741,768	224,507	3,060,146,005	2,869,241,074
TELECOM & RADIO EQUIPMENTS	267,253,514	74,397	-	267,327,911	6,833,953	12,694,552	19,528,505	247,799,406	260,419,561
LONG HAUL EQUIPMENTS	77,900,000	16,139,314	-	94,039,314	636,065	3,830,832	4,466,897	89,572,417	77,263,935
SHORT HAUL PREFAB BUILDING	179,100,000	-	-	179,100,000	2,655,172	8,507,250	11,162,422	167,937,578	176,444,828
B. CAPITAL EXPENDITURE ON ASSETS NOT OWNED BY THE COMPANY	37,080,950	21,188,960	-	58,269,910	1,004,721	2,431,113	3,435,834	54,834,076	36,076,229
TOTAL A & B	1,000,000	-	-	1,000,000	400,000	200,000	600,000	400,000	600,000
PREVIOUS YEAR	7,284,163,939	467,634,783	55,802,735	7,696,255,987	158,758,382	303,812,075	224,507	462,345,950	7,125,405,557
	114,491,481	7,169,672,458	-	7,284,163,939	5,686,967	153,071,415	-	158,758,382	7,125,405,557
									108,804,514

Schedule 4

Particulars	As on 31.03.05 Amount (Rs)		As on 31.03.04 Amount (Rs)	
CAPITAL WORK IN PROGRESS				
OFC laying works by Railways against deposit works	474,234,671		304,546,712	
Other OFC laying works, Pre Fab building etc.	91,191,781		102,421,038	
Installation of STM Equipment	390,110,832		17,094,417	
Add		955,537,284		424,062,167
Incidental expenditure brought forward from last year	94,785,538		90,911,590	
Borrowing Cost Capitalised (Net)	57,336,850		85,970,515	
Incidental expenditure incurred during the current year	72,290,554		33,927,764	
	224,412,942		210,809,869	
Less				
Net Incidental expenditure allocated to projects during the year	196,217,792	28,195,150	116,024,331	94,785,538
TOTAL		983,732,434		518,847,705

Schedule 5

Particulars	As on 31.03.05 Amount (Rs)		As on 31.03.04 Amount (Rs)	
Unsecured, Unconfirmed considered good				
- covered by bank Guarantees	111,644		11,6444	
-others	172,573,398	172,685,042	11,210,000	11,321,644
TOTAL		172,685,042		11,321,644



Particulars	Schedule 6	
	As on 31.03.05 Amount (Rs)	As on 31.03.04 Amount (Rs)
CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES		
Inventory (At cost)		
(Taken, valued and certified by the management)		
Stores & Spares	4,111,982	4,716,479
Sundry Debtors		
(Unsecured, Unconfirmed)		
Debts outstanding for period exceeding six months		
Considered good	1,638,852	3,553,047
Considered Doubtful	1,854,747	-
	3,493,599	3,553,047
Less: Provision for doubtful debts	1,854,747	-
	1,638,852	3,553,047
Others Debts Considered good	28,577,098	1,379,126
Cash & Bank Balances	30,215,950	4,932,173
Cheques in Hand	134,882,575	68,837,712
Funds in Transit	11,552,160	-
Cash / Imprest Balances	85,163	35,641
	146,519,898	68,873,353
Balances with Scheduled Banks in		
Current account		
Term deposits	28,442,184	15,828,487
	196,976,209	347,275,071
(Includes Rs. NIL . (Previous Year Rs. 2 Crore) pledged with SBI against bank Guarantees)	371,938,291	431,976,911
Other Currents Assets		
Accrued Interest on Term deposits	10,109,044	9,260,512
LOANS AND ADVANCES		
(Unsecured, Unconfirmed considered good)		
Staff Advances	2,702,159	244,622
Advances recoverable in cash or in kind or for value to be received	88,356,131	89,023,107
Prepaid taxes	25,004,090	4,801,028
	116,062,380	94,068,757
TOTAL	532,437,647	544,954,832

Schedule 7

Particulars	As on 31.03.05 Amount (Rs)		As on 31.03.04 Amount (Rs)	
CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS				
Current Liabilities				
Sundry Creditors				
For capital expenditure	4,202,835,866		3,963,410,453	
For others	41,370,452		233,918,731	
	<u>4,244,206,318</u>		<u>4,197,329,184</u>	
Deposits & Customer advances	573,989,377		23,530,897	
Book Overdraft (Uncashed Cheques)	1,820,828		20,161,875	
Other liabilities	71,364,418		295,372,067	
		4,891,380,940		4,536,394,023
PROVISIONS				
Provision for Gratuity	72,372		43,848	
Provision for leave salary contribution	119,288	191,660	77,041	120,889
TOTAL		<u><u>4,891,572,600</u></u>		<u><u>4,536,514,912</u></u>

Schedule 8

Particulars	As on 31.03.05 Amount (Rs)		As on 31.03.04 Amount (Rs)	
EMPLOYEES REMUNERATION & BENEFITS				
Salary & Wages	45,785,968		19,417,755	
Employer Contribution to P. F. and other funds	74,801		68,448	
Lease Charges	5,476,785		3,782,861	
Foreign Services Contribution	5,623,027		2,883,688	
Gratuity	28,524		10,094	
Leave salary Contribution	42,247		18,970	
LTC	-		23,427	
Medical Expenses	2,330,707		1,565,390	
TOTAL		<u><u>59,362,059</u></u>		<u><u>27,770,633</u></u>



Schedule 9

Particulars	As on 31.03.05 Amount (Rs)	As on 31.03.04 Amount (Rs)
ADMINISTRATIVE & OTHER EXPENSES		
Auditor's Remuneration	81,610	48,600
Communication Expenses	4,569,648	2,911,033
Conveyance Expenses	1,333,462	1,104,891
Electricity & Power Expenses	2,348,361	402,647
Bank Commission/ Charges	1,255,643	2,907,464
Insurance Expenses	51,649	24,389
Office & Miscellaneous Expenses	6,459,975	8,668,430
Professional Charges & Consultancy Expenses	4,140,306	1,095,575
Rent	6,596,089	6,575,988
Rates & Taxes	792,743	12,793
Repair & Maintenance Others	1,721,658	3,427,051
Repair & Maintenance P&M	49,678,933	9,871,083
Repair & Maintenance Building	216,770	2,200
Tender, Advertisement & Exhibition Expenses	2,903,438	4,512,757
Travelling Expenses	6,924,975	5,693,141
Donation	1,004,118	-
Hire Charges Vehicles	5,344,870	4,085,174
Printing & Stationery Expenses	2,324,963	1,240,830
Preliminary expenses charged off	4,003,431	4,003,430
Prior period Adjustments (Net)	644,559	616,592
Provision for doubtful Debts	1,854,747	-
Bandwidth for protection/Last Mile	3,963,152	-
Internet Bandwidth	5,483,001	390,000
Connectivity Charges	6,031,273	1,059,208
TOTAL	119,729,374	58,653,276

Schedule 10

Significant Accounting Policies

1. General

The Financial Statements are prepared under the historic cost convention, in accordance with the accounting standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India and in accordance with the applicable requirement of the Companies Act, 1956.

2. Fixed Assets

Fixed Assets are stated at cost less accumulated depreciation. Cost includes all the expenses related to bringing the assets to their present location and condition.

Expenditure related to and incurred during construction period are capitalised as part of the construction cost and allocated to relevant fixed assets.

The irrevocable and exclusive right held by the Company to install, construct, own, operate, maintain and keep the Optical Fiber Network on, under or over the Railway land for laying cable, pipes etc. alongside, under, over or across the track, access, easements, quasi-easements and all other rights relating or incidental to the Optical Fiber Network free from all encumbrances, subject to exceptions, is capitalized and is treated as RIGHT OF WAY.

Addition to building on lands not owned by the company are capitalised as Leasehold Improvement.

3. Capital Works-in-Progress

- a) Expenses incidental to construction of various assets are apportioned on prorata basis to respective assets.
- b) Corporate office expenses directly attributable to construction for the year are allocated to regions for apportionment to capital work in progress of the respective regions and other corporate office expenses incidental to construction are allocated to various regions on the basis of route KM commissioned under each region and thereafter capitalised in the ratio of income

and accretion of capital work in progress.

- c) In respect of supply-cum-erection contracts, the value of supplies received and accepted at site, is treated as capital work-in-progress.
- d) Contracts under deposit work are accounted for on the basis of statement of account received from executing agencies/ technical assessments of the works executed.
- e) Income identifiable with capital work-in-progress is adjusted against the cost of different works on pro-rata basis.

4. Borrowing costs

Borrowing costs attributable to the acquisition of qualifying assets during construction are capitalised as part of the cost of acquisition. Such borrowing costs are apportioned on the average of capital work-in-progress during the year.

5. Inventories

Stores and spares are stated at cost.

6. Segment reporting

The primary segment of the company is Business segment and secondary segment is Geographical segment.

In business segment revenue and expenses are directly identifiable to segment are attributed to the relevant segment. The company does not have any inter segment revenue. The expenditure on the repair & maintenance of optic fiber cable has been allocated only on the Bandwidth and Dark fiber. Certain other expenditure such as Salary, wages, other administrative expenditure, interest cost, preliminary expenses and depreciation are not allocable to segment and consequently have been classified as other unallocable expenditure.

Segment total assets and liabilities have not been allocated in the absence of meaningful basis to allocate assets and liabilities between segments.

INCOME

7. Income recognition

Income from lease, renting or sale of end-to-end bandwidth, hire charges for tower space and

accommodation, internet & other service charges are recognised over the term of the lease based after activation of the connection.

EXPENDITURE

8. Depreciation

- a) Depreciation is charged as per straight-line method on fixed assets of the Company at the rates notified under Schedule XIV of the Companies Act, 1956.
- b) Assets purchased for value of less than Rs. 5000/- or of written down values of Rs. 5000/- or less at the beginning of the year are depreciated at 100%.
- c) Depreciation on Right of Way is provided at 3.33% per year on the straight-line method over the period of use out of which 3% is charged to revenue and 0.33% is charged to Capital Reserve.
- d) Depreciation on Leasehold Improvement is provided @ 10% per year as straight-line method.
- e) Depreciation on Pre Fabricated Building is provided @ 4.75% per year as straight-line method.

9. Other Expenditure

Expenses common to operation and construction activities are allocated to the Profit & Loss account and incidental expenses during construction in proportion to the income earned and accretion to Capital work in progress.

10. Miscellaneous Expenditure

- a) Preliminary expenses incurred before 1.04.2004 towards incorporation of the Company is to be written off to the Profit & Loss account over a period of five years from the date of commencement of commercial operations.
- b) Corporate office furnishing expenses incurred before 01.04.2004 are deferred over a period of three years i.e., the period for which building is taken on rent.

11. Retirement Benefits

The liability for retirement benefits of the employees in respect of gratuity and leave encashment is provided for on the basis of actuarial valuation at the end of the year.

Notes on Accounts

1. Contingent Liabilities include:

1. Claims against the Company not acknowledged as debts Rs. 1060 lakh. (Previous Year 587 lakh)
2. Estimated amounts of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for (As certified by the management) Rs 14438 lakh. (Previous Year Rs. 13038 lakh.)
3. Balances shown under advances, sundry debtors, creditors and service tax are subject to confirmation/ reconciliation and consequential adjustment, if any.
4. In the opinion of the management, the value of current assets, loans and advances on realization in the ordinary course of business, will not be less than the value at which these are stated in the Balance Sheet.
5. As per the information available with the company, there are no outstanding balances of small-scale industries lying for more than thirty days as at the end of the year.
6. Due to the policy of providing depreciation @ 100% on assets costing up to Rs. 5,000/- and assets whose written down value is up to Rs. 5000/-, the depreciation charged to the Profit & Loss account is greater by Rs. 3.91 lakh. (Previous Year Rs. 4.62 lakh.)
7. Total remuneration and benefits paid to the Directors during the year are as per following:-

Particulars	2004-05 (Rs.)	2003-04 (Rs.)
Remuneration	20.84 lakh	15.49 lakh
Others	8.56 lakh	6.60 lakh
8. Auditor's remuneration includes:-		
Statutory Audit Fee	48,570	27,000
Tax Audit Fee	22,040	21,600
Other Services	2,500	-
Out of Pocket Expenses	8,500	-
Total	81,610	48,600

Statutory Audit Fee and Out of pocket Expenses includes Rs. 10,000/- and Rs. 2,500/- respectively for previous year.

9. Sundry Debtors include Rs. 35.68 lakh (Previous year Unascertained) due from customers for various circuits who in turn have deposited advances for other circuits. The same have not been adjusted against one another since the accounting for various circuits is done Independently.
10. The Income tax department has raised a demand for Rs. 119 lakh (Previous year NIL) for assessment year 2002-03. No liability for the same have been provided since the matter is under appeal and the company is hopeful for getting relief for the same. However Rs. 119 lakh have been deposited and included under Current Assets and Loans & Advances.
11. Current Liabilities includes Rs. 34020 lakh payable to Railway for Right of way on deferred payment basis of Rs. 1134 lakh per year for 30 years.
12. The Transfer of OFC and other assets from Railways to Railtel against which the latter has to issue equity to the former is an ongoing process. Equity is issued against all those assets which have been transferred and capitalised by the company. However, some of the routes for which transfer has not taken place are in a



- usable state. Such routes have not been capitalised by the company as the actual transfer is yet to take place. The delay in transfer is of a procedural nature. However, the company is using such routes to earn revenue as the are in usable state and such revenue has been accounted for.
13. OFC in Barabanki- Goruakhpur was capitalised during 2003-04 at Rs. 558.03 lakh as this work was envisaged to be done as a Deposit work through Railways. Later, Railways decided to complete this section out of their own funds. This section would then transferred by the Railways to the company. Since the same has not been transferred by the Railways to the company, the Entry for the section has been reversed/ adjusted during the year. The section will be capitalised as and when Railways transfer the same to the company.
 14. Indirect corporate office expenses of Rs. 410.85 lakh have been transferred to the respective regions. The regions have in turn capitalised a sum of Rs. 233.13 lakh out of the above.
 15. The Company has not created Deferred Tax assets as a matter of prudence in terms of Accounting Standard (AS-22) on Accounting of Taxes on Income issued by the Institute of Chartered Accountants of India, as the Company has unabsorbed depreciation and carried forward losses under tax laws and there is no virtual certainty that taxable income will be available in the near future against which the deferred tax assets could be realised.
 16. In accordance with the agreement entered into with the Ministry of Railways on 30th July 2003, vide Clause 3, the Railways agreed to grant to the Company, subject to the provisions of the said agreement, for a period of thirty years an irrevocable and exclusive right to install, control, own, operate, maintain and keep optical fiber network under or over (as appropriate) on the Railways land, value for which was determined in the agreement at Rs. 37800 lakh.
 17. The Company had capitalized the rights as Right of Way under Fixed Assets by creating liability of Rs. 37800 lakh as grant fee payable over a period of thirty years with deferment of payment for 5 years.
 18. During 2003-04, the company had created a liability of Rs. 37800 lakh as explained above. The actual liability due to railways over a period of 30 years was only Rs. 34020 lakh (1134 * 30). The Difference of Rs 3780 lakh has now been credited to Capital Reserve Account.
 19. Under the agreement with the Railways the Company is required to make payment for maintenance of its OFC to the Railway. Until the Railways take over the maintenance, the Company is making its own arrangements for maintenance. Therefore, no provision for payment of maintenance charges to Railways has been made in the accounts.
 20. Under the agreement with the railways, the company is to allot equity share of Rs. 25000 lakh in the name of the President of India for transfer of OFC assets to the company. During the year equity shares worth of Rs. 7635.42 lakh were allotted to the President of India through the Ministry of Railways against the OFC assets transferred. The total equity allotted to Govt. of India against the OFC assets transferred till 31 st March, 2005 is for Rs. 21940.88 lakh.
 21. A. The Company has allotted certain works for laying of OFC to the Railway as deposit works on the basis of estimate submitted by them. In view of Company the estimate submitted by Railway were on higher side and the same has been revised on the strength of technical/financial assessment done during the year. As a result of which total project have been capitalised during the year at Rs 1949.85 .
B. In addition to above, OFC works undertaken by the Company and completed during the year have been capitalised during the year at Rs. 1536 lakh.
 22. In the absence of details and assessment of useful life of assets transferred from Railways, the depreciation on the same has been charged as per Schedule XIV of the Companies Act, 1956. The impact, if any, on the accounts of the company can't be ascertained.
 23. Operating lease

A. General description on leasing arrangement

The Company has been offering Bandwidth, Dark Fibres and tower space to its customer as operating lease for fixed period.

B. Future minimum lease rentals receivable under operating lease for each of the following period as on March 31, 2005 are as under;

Not later than one-year	3006lakh
Later than one year and up to five years	822 lakh
Later than five years	1789lakh
Total	5617 lakh

24. In terms of Para 3.4 of the Agreement with the Ministry of Railways, the Railways have to pay for long haul telecom services provided by the Company. As the assessment of such income to be recoverable from the Railways is still to be done, no adjustment for the same has been made. (Amount unascertainable).

25. Earning Per Share:-

	2004-05	2003-04
Net Profit/ Loss(-) available for Equity Shareholders (a)(Rs.)	(-)195013016	(-)157450265
Weighted Average No. of Equity share of Rs. 10 each (b)	234408807	158054607
Basic/ diluted Earning per share (a)/(b)	(-)0.84	(-)0.99

26. Additional information pursuant to Schedule VI of the Companies Act, 1956, is as follows:

	2004-05	2003-04
a. Value of import calculated on CIF basis		
i. Capital goods	NIL	NIL
ii. Spare parts	NIL	NIL
b. Expenditure in foreign currency		
i. Professional and consultancy fee	NIL	NIL
ii. Others (Rs.)	0.80 Lakh	25.38 lakh
c. Value of components, stores and spare parts consumed (imported and indigenous)	NIL	NIL
d. Earning in foreign exchange	NIL	NIL

27. Related Party Disclosure

List of the related party with whom transaction have taken place during the year and nature of relation ship.

Name of the related parties	Nature of Relationship
1. Shri. K. K. Bajpeyee	Key Management Person
2. Shri. B. Krishan Kumar	Key Management Person
3. Shri. Mahesh Mangal	Key Management Person
4. Smt. Saroj Rajware	Key Management Person



Detail of Related party transaction during the year:-

Nature of transaction	2004-05 (Rs.)	2003-04 (Rs.)
Managerial Remuneration (Key Management Person)	29.40 lakh	22.09 lakh

"As per Our report of even date attached"

For Goyal & Goyal
Chartered Accountants

New Delhi
Date: 28.07.2005

SHOBHIT GUPTA
(PARTNER)

SAROJ RAJWARE
Director (Finance)

S C HANS
Company Secretary

K.K.BAJPEYEE
Managing Director

28. CASH FLOW STATEMENT UNDER INDIRECT METHOD

	Current Year (2004-05)	Previous Year (2003-04)
Cash Flow From Operating Activities		
Net (Loss) as per Profit & Loss Account	(195,013,016)	(157,450,265)
ADD:		
Preliminary expenses charged off	4,003,431	4,003,430
Miscellaneous Expenditure written off	977,318	977,320
Depreciation	177,713,568	69,155,415
Amortisation of right of way	125,874,000	83,916,000
Interest on Loan	171,712,930	155,117,624
Net cash from operating activities before change in working capital (a)	285,268,231	155,719,524
Working Capital changes		
Increase/ (Decrease) in Inventory	(604,497)	4,716,479
Increase/(Decrease) in other current assets	848,532	7,196,743
Increase/(Decrease) in other Loans & Advances	21,993,623	83,780,348
Increase/ (Decrease) in Current Liabilities	115,632,276	355,536,715
Increase / (Decrease) in sundry debtors	25,283,777	3,960,077
Net Decrease in Working Capital (b)	68,110,841	255,883,068
Net cash from operating activities (a)+(b)	353,379,072	411,602,592
Cash Flow From Investing Activities		
Increase/(Decrease) in Gross Block	412,092,048	7,169,672,458
Increase / (Decrease) in Capital Work in Progress	464,884,729	(881,174,766)
Increase/ (Decrease) in Advance to Parties	161,363,398	(1,032,269)
Adjustment for Capital Reserve	357,210,000	-
Increase/ (Decrease) in Current Liabilities for capital works	239,425,413	3,595,984,082
Net cash from investing activities	(441,704,762)	(2,691,481,341)
Cash Flow From Financing Activities		
Share Capital	-	2,194,088,000
Loan from State Bank of India	200,000,000	-
Interest on Loan	171,712,930	155,117,624
	28,287,070	2,038,970,376
NET INCREASE/(DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS	(60,038,620)	(240,908,373)
CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF PERIOD	431,976,911	672,885,284
CASH AND CASH EQUIVALENT AT END OF PERIOD	371,938,291	431,976,911



29. Segment Information (Previous Year figures are in brackets) (Rs. In Lakh)

Particulars	Bandwidth	Dark Fibres	Tower	Internet	Other	Total
Segment Revenue	2359.72 (780.56)	374.47 (120.65)	291.19 (132.97)	212.67 (4.67)	48.41 (95.11)	3286.46 (1133.96)
Segment Expenses	797.45 (246.62)	83.02 (18.04)	72.80 (33.24)	54.83 (-)	- (-)	1008.10 (297.90)
Segment Results	1562.27 (433.94)	291.45 (102.61)	218.39 (99.73)	157.84 (4.67)	48.41 (95.11)	2278.36 (836.06)
Unallocated Expenses						416.44 (411.77)
Operating Profit						1861.92 (424.29)
Interest Expenses						984.07 (468.08)
Depreciation						2827.98 (1530.71)
Net Loss						1950.13 (1574.50)

30. Figures for the previous year have been rearranged and regrouped wherever necessary to make them comparable with this years presentation.



31. BALANCE SHEET ABSTRACT AND COMPANY'S GENERAL PROFILE

I. Registration Code
 State Code Registration No.

Balance Sheet Date

II. Capital Raised during the year (Amount in Rs. Thousands)

Public Issue

Right Issue

Bonus Issue

Private Placements

III. Position of Mobilisation and Deployment of Funds (Amount in Rs. Thousands)

Sources of Funds
 Total Liabilities

Total Assets

Paid - Up Capital

Share Application Money

Secured Loans

Reserves & Surplus

Application of Funds

Net Fixed Assets

Investment

(includes CWIP & Advance for Capital Expenditure)

Net Current Assets
 (-)

Misc. Expenditure

Accumulated Losses

IV. Performance of Company (Amount in Rs. Thousand)

Turnover including other Incomes

Total Expenditure

Profit/Loss Before Tax

+ -

Loss After Tax

Earning Per Share in Rs.

Dividend Rate%

V. Generic Name of Three Principal Services of Company

Item Code No.
 Product Description
 Item Code No.
 Product Description
 Item Code No.
 Product Description

"As per Our report of even date attached"

For Goyal & Goyal
 Chartered Accountants

SHOBHIT GUPTA
 (PARTNER)

SAROJ RAJWARE
 Director (Finance)

S C HANS
 Company Secretary

K.K.BAJPEYEE
 Managing Director

New Delhi
 Date: 28.07.2005